

महिला कोच में पुरुषों का कब्जा

हरिभूमि

रायपुर भूमि

40 प्रतिशत एक्सप्रेस ट्रेनों में ही महिला कोच की सुविधा

जनरल कोच की कटौती में महिला कोच की संख्या भी ट्रेनों से कम होने लगी है। नए एलएचबी कोच में दिव्यांगों के लिए कोच की व्यवस्था तो है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष कोच की सुविधा नहीं दी गई है। रायपुर से गुजरने वाली लगभग 40 प्रतिशत एक्सप्रेस ट्रेनों में ही महिला विशेष कोच की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें पैसेंजर, आजाद हिंद, छत्तीसगढ़, पोरबंदर और अन्य ट्रेनें शामिल हैं। पुराने आईसीएफ कोच में महिला कोच की विशेष व्यवस्था थी, लेकिन नए एलएचबी कोच में यह सुविधा कुछ ट्रेनों में ही दी गई है, जिससे महिला यात्रियों को यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।



महिला दिवस पर उन पुरुषों को लानत, जो उनके अधिकार छीनते हैं

■ महिला कोच में पुरुषों के चढ़ने से महिलाएं अब सामान्य कोच में खा रही धक्के

■ नए कोच में घंट गए महिला विशेष कोच, पुरानी कोच में मिल रही सुविधा

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

महिलाओं के सम्मान में भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में महिलाओं के लिए विशेष महिला कोच की व्यवस्था की है, ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकें, लेकिन अब महिला कोच में पुरुषों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। हालात यह हैं कि वर्तमान में महिला कोच में

महिलाओं की उपस्थिति केवल 40 प्रतिशत रह गई है, जबकि 60 प्रतिशत सीटें पुरुषों के कब्जे में हैं। इस वजह से अब अकेली यात्रा कर रही महिलाओं को भीड़ के बीच धक्के खाते हुए सफर करना पड़ रहा है। महिला दिवस के अवसर पर हरिभूमि की टीम ने महिला कोच की स्थिति की पड़ताल की। सुरक्षा और आराम के उद्देश्य से बनाए



कोच में सीट को लेकर रोज झगड़ा

महिला विशेष कोच में पुरुषों का बैठना रेलवे नियमों का उल्लंघन है और ऐसा करने पर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन रायपुर से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनों में महिलाएं और पुरुष दोनों ही महिला कोच में सफर करते हैं। इस कारण रोजाना विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि इन कोच में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। भीड़ के कारण कई बार आम यात्री महिला कोच में चढ़ जाते हैं, जिससे महिलाओं को अपने विशेष कोच में भीड़ के बीच यात्रा करना पड़ती है। रेलवे अधिकारियों द्वारा आम यात्रियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके कारण यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।

खबर संक्षेप

ग्राहक तलाशते धरा गया बाइक चोर

रायपुर। डीडीनगर पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक जब्त की है। बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने संजीव रेड्डी को गिरफ्तार किया है। संजीव के खिलाफ दुर्गा, पाटन निवासी संजय ने 20 फरवरी को बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। संजीव को पुलिस ने एक कार शोरूम के पास बाइक बेचने ग्राहक तलाश करते गिरफ्तार किया है।

ढेले में शराब पीने से रोकने पर किया चाकू से हमला

रायपुर। आजाद चौक थाने में एक युवक ने दो लड़कों के खिलाफ मारपीट तथा चाकू से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पेशे से ऑटो चालक जितेंद्र धुव ने विकास तथा योगेश निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि विकास तथा योगेश आमातालाब स्थित उसके पिताजी के चाय ठेले के पास बैठकर शराब पी रहे थे। मना करने पर दोनों बदमाशों ने जितेंद्र के साथ विवाद करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया।

सूने मकान में धावा, एक लाख के कैश-जेवर पार

रायपुर। डीडीनगर थाने में एक महिला ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपने सूने मकान से एक लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवर तथा नकदी चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सत्यम विहार कालोनी निवासी दुर्गा चंद्राकर ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। दुर्गा ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ शुक्रवार को दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने टाटीबंध गई थी। शनिवार सुबह घर लौटने पर महिला ने देखा कि अज्ञात चोर उसके घर के मेन गेट का सेंट्रल लॉक तोड़कर आलमारी में रखी नकदी, जेवर चोरी कर ले गए हैं।

कमांडेंट ऑफिस में कब्जा, सामान चोरी भी

रायपुर। माना थाने में कमांडेंट ऑफिस में कार्यरत लिपिक ने अज्ञात चोर के खिलाफ पुराना कमांडेंट ऑफिस के ट्रांसफार्मर स्टोर रूम की दीवार तोड़कर कब्जा करने के साथ ही स्टोर रूम में रखे सामान चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कमांडेंट ऑफिस के लिपिक रामेश्वर चंद्राकर ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई है।

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने पूर्ववर्ती सरकार के समय 15 करोड़ की गारमेंट फैक्ट्री खोलने का ऐलान हुआ। तीन साल में नगर निगम ने 4 करोड़ खर्च कर मोवा क्षेत्र में बीएसएनएल आफिस के पास 45 हजार वर्गफीट जगह पर भवन का ढांचा भी खड़ा कर दिया, पर आज तक न इसके सेटअप का ठिकाना है, न ही 1 हजार सिलाई मशीन खरीदने निगम के पैसे हैं। ऐसे में शहर की जरूरतमंद 1 हजार महिलाओं को निःशुल्क सिलाई

108 इमरजेंसी कॉल में मजाक... कोई कर रहा मिसडकॉल, कोई दे रहा गालियां

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

आपातकाल में मदद के 0लिए उपयोग किए जाने वाले 108 के इमरजेंसी कॉल का लोग इंटरटेनमेंट के लिए उपयोग कर रहे हैं। कोई गाली-गलौज कर अपनी भड़ास निकलता है। ऑकड़ों की मानें, तो संजीवनी एंबुलेंस सेवा के कॉल सेंटर का स्टाफ हर महीने औसतन ऐसे 10 हजार फेक कॉल को झेल रहा है। इसमें बच्चों के फोन, फर्जी कॉल के साथ अपमानजनक बातें करने वाले कम नहीं हैं।

प्रदेश में किसी की आपात स्थिति होने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए संजीवनी एंबुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है। तत्काल

संजीवनी एंबुलेंस सेवा के कॉल सेंटर में हर माह 10 हजार फर्जी सूचनाएं

चौबीस घंटे में 80 बार आते हैं फोन कॉल

अपना टाइमपास करने के लिए लोग इस आपातकालीन सेवा से जुड़े नंबर का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। कॉल सेंटर से जुड़े सूत्रों के अनुसार यहां एक दिन में एक ही नंबर से 80 बार कॉल किया गया। फोनधारक साइलेंट कॉल पर इससे कॉल सेंटर का स्टाफ परेशान होकर रह गया। इसी तरह एक ही नंबर से दर्जनों बार कॉल आते रहते हैं। कॉल करने वाला कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग करता है, जो फोन अटेंड करने वाले को शर्मसार कर देता है।

छोटे बच्चों और फ्रैंक कॉल की भरमार, दुर्व्यवहार करने वाले भी कम नहीं



कितने फेक कॉल

वर्ष	2024
जनवरी	19556
फरवरी	16927
मार्च	17853
अप्रैल	17506
मई	19243
जून	23277
जुलाई	20468
अगस्त	12088
सितंबर	7502
अक्टूबर	11990
नवंबर	11731
दिसंबर	8284
जनवरी 2025	10146
फरवरी 2025	9337

ग्रामीण इलाकों से ज्यादा कॉल

संजीवनी सेवा के कॉल सेंटर के माध्यम से पूरे राज्य में 108 संजीवनी सेवा का संचालन किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक फेक तथा अनचाहे कॉल शहर की तुलना में ग्रामीण इलाकों से अधिक आते हैं। इन फर्जी कॉल की वजह से कॉल सेंटर के फोन बेवजह बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन लोगों को मदद मिलने में देर हो जाती है, जिनको उसकी वास्तविक आवश्यकता होती है।

कॉल उठाना जरूरी

कॉल सेंटर में प्रतिदिन सैकड़ों फेक कॉल आते हैं। परेशान होने के बाद भी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अटेंड करने का प्रयास किया जाता है। 108 का उपयोग एंबुलेंस सहायता के लिए ही किया जाना चाहिए।

जिसका 28 लाख मुआवजा देना था उसी भूमि का 2 करोड़ 47 लाख भुगतान

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र के ग्राम टोकरो में भी भारत माला परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के बदले मुआवजा देने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। एसडीएम, तहसीलदार एवं पटवारी की मिलीभगत से इस गांव के 4 किसानों की बिना बंटोकन हुई भूमि को अधिग्रहित किया गया है। यह चारों भूमि गांव के अलग-अलग परिवार के मुखिया के नाम पर दर्ज थी, लेकिन भारत सरकार के राजपत्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद इन चारों किसानों के नाम ऑनलाइन रिकार्ड से हटाए गए और फिर परिवार के प्रत्येक सदस्यों के नाम पर टुकड़ों में विभाजित कर चढ़ा दिया गया। यह पूरा काम अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले यानी बैंक डेट पर किया गया। इस पूरे फर्जीवाड़ा में चौकाने वाली बात यह है कि जिस परिवार के सदस्यों के नाम पर टुकड़ों में भूमि चढ़ाई गई हैं, उन परिवारों

भारत माला परियोजना में अभनपुर के ग्राम टोकरो में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर

■ एक भूमि को 10 टुकड़ों में किया विभाजित और परिवार के 4 सदस्यों के नाम पर चढ़ा दिए रिकॉर्ड



विभाजन के बाद भूमि सिंगल नाम सहित जॉइंट सदस्यों के नाम में चढ़ा दी गई

प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के अनुसार रामआसरा के नाम पर दर्ज भूमि में फर्जीवाड़ा कर 10 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, जबकि उसके परिवार में सदस्यों की संख्या सिर्फ 4 है। इसके बाद भी भूमि चार सदस्यों के नाम पर चढ़ाई गई। इसमें अलग-अलग खसरा नंबर की एक-एक भूमि को सभी सदस्यों के व्यक्तिगत नाम पर चढ़ाई गई है, वहीं शेष 6 भूमि को भी दो-दो सदस्यों के जॉइंट नाम पर चढ़ाया गया है।

32 लाख की जगह 3 करोड़ 18 लाख का भुगतान

ग्राम टोकरो में ही चुनेश्वर साहू के परिवार को भी इसी तरह 32 लाख की जगह 3 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा राशि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। चुनेश्वर साहू के नाम पर रकबा 00.530 हेक्टेयर जमीन दर्ज थी, जिसे 12 टुकड़ों में विभाजित कर परिवार के 7 सदस्यों के नाम पर चढ़ा दिया गया है। इनमें चुनेश्वर के अलावा उसकी पत्नी चंद्रिका बेटी खिलेश्वर, बेटी लक्ष्मी, लीमन, गोपीचंद्र एवं अजय शामिल हैं। इन सभी के नाम पर खसरा नंबर 32/1 से लेकर 32/12 तक की भूमि को सभी सदस्यों के सिंगल नाम के अलावा जॉइंट नाम से चढ़ाया गया है।

मोवा में निगम की पहली गारमेंट फैक्ट्री 3 साल से अधर में नहीं बन पाई महिलाएं आत्मनिर्भर, 4 करोड़ की बिल्डिंग खाली पड़ी, न सेटअप का ठिकाना, न सिलाई मशीन आई

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

■ 1000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का दावा खोखला निकला

■ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का 15 करोड़ का प्रोजेक्ट

प्रशिक्षण देकर निगम की गारमेंट फैक्ट्री में रोजगार दिलाने का दावा खोखला साबित हो रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार का 15 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल हवा-हवाई

न एजेंसी का ठिकाना, न महिलाओं का चयन हुआ शहर के आउटर इलाके में नगर निगम ने 4 करोड़ खर्च कर शेड निर्माण, बाउंड्रीवाल, साइड रोड बनाने का काम और बिल्डिंग तो बनवा ली, फैक्ट्री संचालन के लिए अब तक एजेंसी तय करने में देर तक नहीं हुआ। नगर निगम को 1 हजार सिलाई मशीन खरीदनी हैं, साथ ही सेटअप तैयार करने 10 करोड़ 50 लाख रुपये चाहिए। शासन के पास योजना शाखा ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है, पर मंजूरी नहीं मिलने से काम लंबित है। कुल मिलाकर गारमेंट फैक्ट्री संचालन के लिए न एजेंसी का ठिकाना है, न ही 1 हजार महिलाओं का चयन हो पाया।



गुल की फड़ में पिस्टल और कारतूस, नकद 72 हजार रुपए जब्त



हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

नंदनवन अटारी रोड स्थित एक ढाबा की छत पर चोरी छिपे गुल के माध्यम से जुआ खेल रहे पांच जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुआरियों के कब्जे से पुलिस ने केश 72 हजार रुपए के साथ पिस्टल तथा जिंदा कारतूस जब्त किया है। पुलिस ने पिस्टल के लाइसेंस होने की जानकारी दी है। जुआ की फड़ में पिस्टल बरामद होना गंभीर है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि जिसके कब्जे से पिस्टल बरामद की गई है, वह सामान्य घटना है। पुलिस का कहना है कि जिसके कब्जे से पिस्टल तथा कारतूस बरामद किया गया है, वह हमेशा पिस्टल तथा कारतूस साथ लेकर घूमता है। पुलिस ने गुल से सट्टा खेलते हरिश चंद्राकर, यश संतवानी, शुभम चंद्राकर, राजा बघेल तथा शंख

आमानाका के एक ढाबा की छत पर खेल रहे थे जुआ

हरिभूमि

समाचार ही नहीं, विचार भी

अब हर माह आप बनेंगे भाग्यशाली विजेता

महाबम्पर ड्रॉ में शामिल होने का सुनहरा अवसर

प्रथम पुरस्कार

1 तोला, 5 नग सोने का हार

द्वितीय पुरस्कार

1 स्कूटी (EV)

तृतीय पुरस्कार

2 नग रेफ्रिजरेटर

चतुर्थ पुरस्कार

3 नग LED TV

सातवना पुरस्कार

1100

नियम व शर्तें: 1. हर माह जन्मदिन उत्सव कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा। योजना में भाग लेने के लिए पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित फार्मेट को भेजकर हरिभूमि कार्यालय, खुरी कार्यालय या अपने ऑफिस/घर की पता पर भेज सकते हैं। 2. हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक इसमें भाग ले सकते हैं, जन्मदिन के फार्मेट एक माह पहले भेजना जरूरी। उनके जन्मदिन पर उन्हें सुनिश्चित उम्मीद दिया जायेगा। 3. प्राप्त जन्मदिन के फार्मेट को एकत्रित कर महाबम्पर ड्रॉ में शामिल किया जायेगा जिसका ड्रॉ नवम्बर 2025 में किया जायेगा। 4. जन्मदिन फार्मेट के साथ आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ 3 माह उत्सवकार का मासिक वित्त लब्धना अनिवार्य होगा। 5. जन्मदिन फार्मेट की फोटो कागज़ी नभ्य नहीं होगी। 6. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सभी नियम लागू होंगे। इस योजना के विजेता को आयकर के नियम व शर्तें लागू होंगी। हरिभूमि निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सार्वभौम होगा। किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय तब तयार होगा। हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना में भाग नहीं ले सकते। 7. विषय में दयाएं गए उपहार विन्या हो सकते हैं।

दिवस

महिलाओं को सम्मानकर दिया गया प्रतीक चिन्ह

हरिभूमि न्यूज ▶▶ तिलदा नेवरा

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर किया 13 शिक्षिकाओं का छग कबीर सेना ने सम्मान



सहायक शिक्षक, श्रीमती शिव कुमारी देवांगन शिक्षक, सुश्री अर्चना साहू शिक्षक, सुश्री मंजूलता दांडे शिक्षक, श्रीमती हेमा देवांगन का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सदगुरु कबीर सेना प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप नायक ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा - स्त्री के बिना सृष्टि अधूरी है, नारी ही शक्ति माता है सृष्टि में प्रथम गुरु माता ही है, आप सभी शिक्षक हैं, गुरु के रूप में मुझे आपके सम्मान का अवसर प्राप्त हुआ यह मेरा सौभाग्य है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर करुणा, ममता, एवं गुरु की प्रतिमूर्ति नारी शक्ति को मेरा नमन है। कार्यक्रम का समापन शाला के प्रधान पाठक श्रीमती पुष्पलता नायक प्रधान पाठक, श्रीमती भारती वर्मा सहायक शिक्षक, श्रीमती श्रद्धाबाला गुप्ता सहायक शिक्षक, श्रीमती मीनाक्षी देवांगन सहायक शिक्षक, श्रीमती देवकी ध्रुव सहायक शिक्षक, श्रीमती ध्रुव

सहायक शिक्षक, श्रीमती शिव कुमारी देवांगन शिक्षक, सुश्री अर्चना साहू शिक्षक, सुश्री मंजूलता दांडे शिक्षक, श्रीमती हेमा देवांगन का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सदगुरु कबीर सेना प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप नायक ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा - स्त्री के बिना सृष्टि अधूरी है, नारी ही शक्ति माता है सृष्टि में प्रथम गुरु माता ही है, आप सभी शिक्षक हैं, गुरु के रूप में मुझे आपके सम्मान का अवसर प्राप्त हुआ यह मेरा सौभाग्य है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर करुणा, ममता, एवं गुरु की प्रतिमूर्ति नारी शक्ति को मेरा नमन है। कार्यक्रम का समापन शाला के प्रधान पाठक श्रीमती पुष्पलता नायक प्रधान पाठक, श्रीमती भारती वर्मा सहायक शिक्षक, श्रीमती श्रद्धाबाला गुप्ता सहायक शिक्षक, श्रीमती मीनाक्षी देवांगन सहायक शिक्षक, श्रीमती देवकी ध्रुव सहायक शिक्षक, श्रीमती ध्रुव

200 महिलाओं का सम्मान कर दी स्वच्छता के लिए 5 ई रिक्शा

कौरा/धरसीवा। जायसवाल नीको इंटरट्रीज लिमिटेड द्वारा आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत नीको नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया नीको कंपनी के चेयरमैन अरविंद जायसवाल मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश जायसवाल गुपु डायरेक्टर अरविंद जायसवाल के मार्गदर्शन में एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस के स्टेन के नेतृत्व में हमारे नीको गुपु ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारा उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर, हम महिलाओं के योगदान को सलाम करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि महिला सशक्तिकरण हमारे समाज के लिए एक मजबूत और समृद्ध भविष्य की कुंजी है। आज नीको नारी सम्मान कार्यक्रम संयंत्र परिसर में रखा गया था कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिला किसी से कम नहीं है यदि अवसर मिले तो वह हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठ साक्षित की है मुख्य अतिथि के द्वारा संयंत्र परिसर के आसपास के गांव गिरोद धनेनी मांढर गुरेटी चरोदा के सरपंचों को ई रिक्शा की चाबी सौंप कर महिला समूह के माध्यम से गांव में स्वच्छता रथ चलाकर स्वच्छता कार्यक्रम चलाने एवं महिला समूह को सशक्त बनाकर रोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया।

अभनपुर पालिक उपाध्यक्ष पद पर बलविंदर की जीत



अभनपुर। नगर पालिका अभनपुर में प्रथम सम्मेलन एवं नगर पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव भारी गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ। उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी से बलविंदर गांधी एवं कांग्रेस पार्टी के बागी पार्षद श्रीमती सुशीला हरवंश भाजपा के समर्थन से प्रत्याशी थी। कांग्रेस के बलविंदर गांधी को 9 मत प्राप्त हुये वही सुशीला हरवंश को 7 मत प्राप्त हुये है एवं बलविंदर गांधी 2 मतों के अंतर से उपाध्यक्ष चुने गये। कांग्रेस के 10 पार्षद होते हुये भी भारी तनातनी के बीच सफलता मिल पाई है, सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों में भारी तनाव का माहौल देखा गया यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय में शपथ लिया, वही अध्यक्ष व भाजपा के 5 सदस्यों ने स्टेडियम मैदान में शपथ ली। उपाध्यक्ष चुनाव के लिए वर्तमान विधायक इन्द्रकुमार साहू एवं पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू दोनों नेता अपने अपने दल की कमान संभाले हुये थे, दोनों पार्टियों के नेताओं ने अंतिम समय तक उपाध्यक्ष प्रत्याशी का पता नही खोले थे, उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर सुबह से भारी गहमागहमी का माहौल रहा तथा दोनों ही पार्टियों के प्रमुख कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर सुबह से ही डटे रहे भाजपा के पास बहुमत नही होने के बावजूद इस चुनाव में रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर दिया, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष बलविंदर गांधी लगातार चौथी बार पार्षद चुने गये है उनके उपाध्यक्ष बनने पर नगर के बड़ी संख्या में नगर पालिका पहुंचकर उन्हें बधाई प्रेषित किया है।

// ईशतहार //
मैं राजेश्वरी घृतलहरे ग्राम परसाभदेर, जिला-बलौदा बाजार घोषणा करती हूँ कि मेरे पति की मृत्यु उपरांत उनकी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरा नाम राजेश्वरी देवी व जन्मतिथि 09/06/1993 दर्ज है। जो की त्रुटि पूर्ण है। मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राजेश्वरी घृतलहरे तथा जन्मतिथि 10/06/1986 दर्ज है। जो की सही है।
राजेश्वरी घृतलहरे
ग्राम- परसाभदेर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार 04 रायपुर
मामले की श्रीमती: राजन्व
संदर्भ: जिला रायपुर तहसील-रायपुर प.ह.नं.-00082 मुजानहन ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक- RD202425440727300025
// ईशतहार //
तहसील रायपुर के प.ह.नं. 00082 के अंतर्गत ग्राम मुजानहन के वर्तमान भूमिस्वामी फनिक कुमार सिंह पिता/पति-अभय कुमार सिंह पिता-वार्ड-5, न्यू मॉडर्न, सेक्टर विरमिरी कॉलोनी कोरिया के द्वारा प्रारित भूमि खसरा क्रमांक 39/5(0.0092) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता बालकिसन अहिरवार पिता/पति-नृज अहिरवार पिता-निवासी-ग्राम देवती, पो. सेमरा घाट, सेमराघाट, सेमराहल, सारन (मध्यप्रदेश) के नाम पर पंजीन/पंजीती होने के उपरांत नामांतरण / अभिलेख डुरुती / खाली विभाजन के लिए प्रकरण अहोहरताकरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचारधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24/03/2025 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार 04 रायपुर पर की जावेगी।
उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इशतहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं / अधिकृत / आमपुख्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पसमंद से आज दिनांक 04/03/2025 को जारी किया जाता है।
तहसीलदार,
Pawan kosma
रायपुर

न्यायालय तहसीलदार, मंदिर हसोद, जिला- रायपुर (छ.ग.)
// ईशतहार //
क्रमांक/Q/वाचक/तह/2024
मंदिर हसोद, दिनांक 20/12/2024
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गिरवार कुमार ठाकुर पिता स्व उदय राम ठाकुर निवासी ग्राम बड़गाँव, तहसील मंदिर हसोद जिला रायपुर (छ.ग.) के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है, कि ग्राम बड़गाँव, प.ह.नं.-11, रा.नि.म. चंदखुर्ी, तहसील मंदिर हसोद, जिला- रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 275, 512, 1375 रकबा क्रमशः 0.77, 0.09, 0.11 हे. भूमि जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है जिसका मूल ऋण पुस्तिका आवेदक को पूर्व में प्राप्त हुआ था जो असावधानीपूर्वक कहीं गुम हो गया है। आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि का डुलिक्केट ऋण पुस्तिका जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय दर्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 17/03/2025 तक स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, निवत अवधि के बाद दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः यह ईशतहार आज दिनांक 20/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।
तहसीलदार
मंदिर हसोद (छ.ग.)

ग्राम सङ्घ में तीन दिनी मानस गान आज से
तरपोंगी। समीपस्थ ग्राम सङ्घ में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 9 से 12 मार्च तक तीन दिवसीय वार्षिक रामायण मानस गान समारोह का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम 9 मार्च को शाम 4 बजे दीप प्रज्ज्वलित के साथ शुभारम्भ होगा। समापन 12 मार्च को शाम 4 बजे होगा। सभी मानस मण्डली को सदाबहार दानदाताओं के सहयोग से 1001 रु (एक हजार एक) का सहयोग राशि दिया जायेगा। यह मानस गान समारोह का 51 वां वर्ष है। मानस गान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक संचालित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी होंगे। अध्यक्षता नंदू साहू सरपंच सङ्घ करेंगे। विशिष्ट अतिथि देवेद वर्मा जनपद सदस्य, रतनचंद निषाद पूर्व जनपद सदस्य, रतन कश्यप सरपंच सगुनी, नरेंद्र यादव पूर्व सरपंच सङ्घ, शोभित वर्मा भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य, गीता उत्तम जोशी भूत पूर्व सरपंच सङ्घ, अभिषेक जोशी रायपुर, कृष्ण कुमार पांडे, धर्मेन्द्र वर्मा सचिव प्रदेश किसान कांग्रेस, संतोष कुमार साहू पूर्व सरपंच सङ्घ आदि होंगे।
आरंग अध्यक्ष व पार्षदों का शपथ ग्रहण आज
आरंग। बस स्टैण्ड आरंग में 09 मार्च को सुबह 11 बजे नगर पालिका परिषद आरंग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन एवं पार्षदगणों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। जिसमें मुख्य अतिथि अरुण साव उप मुख्यमंत्री, बुजमोहन अगवाल सांसद, अतिविशिष्ट अतिथि गुरु खुशवंत साहेब विधायक आरंग, चंदूला साहू पूर्व सांसद, श्याम नारंग जिलाध्यक्ष रायपुर भाजपा वामीण, नवीन मारकण्डेय पूर्व विधायक आरंग, संजय दीदी पूर्व विधायक आरंग, देवनाथ साहू अध्यक्ष भाजपा मण्डल आरंग शामिल होंगे।

तरपोंगी में रामायण मानस गान समारोह आज से
तरपोंगी। स्थानीय ग्राम तरपोंगी में 9 से 12 मार्च तक तीन दिवसीय वार्षिक रामायण मानस गान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारम्भ 9 मार्च को शाम 4 बजे होगा। समापन 12 मार्च को शाम 4 बजे संपन्न होगा। सभी मानस मण्डली को सदाबहार दानदाताओं के सहयोग से सहयोग राशि दिया जायेगा।
सतनामी समाज की बैठक आज
मंदिर हसोद। सतनामी उद्योग एवं जागृति समिति रायपुर द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सतनामी सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अगिम पंजीवन की प्रक्रिया शुभारंभ हो चुका है। जो कि 6 अप्रैल को सांस्कृतिक मवन प्रांगण वयू राजेंद्र नगर गुरु धार्सीदास कॉलोनी रायपुर में आयोजित किया जा रहा है।

शोक संदेश

स्व. श्री रामकुमार नायक
शोककुल
राधेश्याम, महेश कुमार, कुंदेश्वर, सुधीश्वर, वीरेंद्र कुमार शिवकुमार, अलखराम, पुरुषोत्तम, विनोद कुमार, कुलदीप, पालेश्वर, अश्व, पलाश एवं समस्त नायक परिवार वनसांकर।

विधि के विधान के समक्ष नमस्करक होते हुए अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे परम पूज्य पितादेव श्री रामकुमार नायक जी का स्वर्गवास फाल्गुन कृष्ण पक्ष 09 दिनांक 28 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार को हो गया है। जिनका दशग्रात्र दिनांक 09.03.2025 (रविवार) को होगा।
अतः इस दुःखद क्षण में सन्मतिरित होकर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

कार्यक्रम स्थल
ग्राम वनसांकर (क्षिण)

विनीत
श्रीमती कमला नायक (पति)
प्रभाकर - संजीत नायक (पुत्र-पुत्रवधु)
शिवरंकर-पंमिषा नायक (पुत्र-पुत्रवधु)
मौ. 8349764666, 9689317713

हमने बनाया है हम ही संवारेगे

नगर पालिका परिषद, आरंग

अत्यंत हर्ष का विषय है कि नगर पालिका परिषद आरंग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन एवं पार्षदगण का शपथ ग्रहण समारोह

मुख्य अतिथि - माननीय श्री अरुण साव जी
उप मुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग. शासन
अध्यक्षता - माननीय श्री बुजमोहन अगवाल जी
सांसद, रायपुर लोकसभा
अतिविशिष्ट अतिथि - माननीय गुरु खुशवंत साहेब जी
उपाध्यक्ष - अनु.जा.वि.प्रा. छ.ग. शासन (केबिनेट मंत्री दर्जा), विधायक आरंग
माननीय श्री चंदूला साहू जी (पूर्व सांसद)
विशिष्ट अतिथि - माननीय श्री श्याम नारंग जी (जिलाध्यक्ष रायपुर वामीण भा.ज.पा.)
माननीय श्री नवीन मारकण्डेय जी (पूर्व विधायक, आरंग)
माननीय श्री संजय दीदी जी (पूर्व विधायक, आरंग)
माननीय श्री देवनाथ साहू जी (अध्यक्ष भा.ज.पा. मण्डल आरंग)
के आतिथ्य में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें आपकी गरिमामय उपस्थिति सादर अपेक्षित है।

दिनांक - 09 मार्च 2025, समय - प्रातः 11:00 बजे
स्थान - बस स्टैण्ड आरंग

डॉ. संदीप जैन
नवनिर्वाचित अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, आरंग

नरेन्द्र लोधी वार्ड क्र. 03
भानमती राकेश सोनकर वार्ड क्र. 08
पुष्कर साहू वार्ड क्र. 09
संतोष लोधी वार्ड क्र. 10
विरेंद्र कंडरा वार्ड क्र. 11
सुनीता विनायक धुरंधर वार्ड क्र. 12
वितरेखा विक्रम परमार वार्ड क्र. 13
ध्रुव कुमार मिर्धा वार्ड क्र. 15
सेवती तोषण साहू वार्ड क्र. 16
हिरामन कोसले वार्ड क्र. 17

विनीत - समस्त भाजपा कार्यकर्ता, नगर पालिका परिषद् आरंग

राज्य का नया विमान 2006 से उपलब्ध

राज्य सरकार ने 4 वर्षों में हेलीकॉप्टर किराए पर 249 करोड़ रुपए किए खर्च

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 4 सालों में हेलीकॉप्टर किराए पर 249 करोड़ 15 करोड़ 42 हजार 818 रुपए खर्च किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस विधायक इंद्र साव के विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के संबंध में प्रश्न किया कि विमानन विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2024-25 (31 जनवरी 2025) तक किन-किन निजी कंपनियों से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। इन कंपनियों को किस दर

पर राशि का भुगतान किया गया है। क्या विमानन विभाग ने शासकीय विमान की खरीदी की थी। वर्तमान में यह विमान उपयोग में है अथवा नहीं?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने लिखित जवाब में बताया कि राज्य शासन ने वर्ष 2006-07 में डबल इंजन युक्त शासकीय विमान-किंग एयर बी-200, वीटी-सीटीजी की खरीदी की थी, यह विमान दिसंबर 2006 से उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर टेण्डर के जरिए निजी कंपनियों से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया जाता है।



नई सरकार बनने के बाद इतना किराया

नई सरकार बनने के बाद उसी कंपनी से चोंपर किराए पर लिया गया। वर्ष 2023-24 में दिल्लीन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा से 51 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 89 करोड़ 50 लाख 33 हजार 999 रुपए का भुगतान किया गया।

दिल्लन एविएशन का हेलीकॉप्टर किराए पर लिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में दिल्लीन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा से 11 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 6 करोड़ 66 लाख 42 हजार 783 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं एयर किंग वाटर प्राइवेट लिमिटेड से 21 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 18 करोड़ 15 लाख 92 हजार 159 रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह वर्ष 2022-23 में दिल्लीन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा से 41 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था। इसके एवज में 59 करोड़ 99 लाख 44 हजार 105 रुपए का भुगतान किया गया।

पिछले 5 साल में 218 कंपनियों से एमओयू, 26 के निरस्त

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ रायपुर

विधानसभा के बजट सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न कंपनियों से हुए एमओयू पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किया। उन्होंने पूछा कि कितनी कंपनियों के साथ एमओयू किए गए और इनमें से कितने निरस्त कर दिए गए। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि वर्ष 2019 से 2023 के दौरान 218 एमओयू किए गए। इनमें से जमीन पर कोई काम नजर नहीं आने पर 26 एमओयू निरस्त किए गए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन से

सवाल किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किन-किन उद्योग-कंपनियों के साथ कब-कब और कितनी राशि का एमओयू किया। इनमें से कितनी राशि, देश अथवा विदेश की कंपनियों हैं। इनमें से कितने एमओयू को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही इन कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए किस जिले में कितनी शासकीय अथवा निजी भूमि आबंटित की गई। इनमें से कितनी कंपनियों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है और कितनी कंपनियों ने कार्य प्रारंभ नहीं किया है। साथ ही कितने रोजगार के पद सृजित किए जाने थे और छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।



53 नए काम करना शुरू किया

इन 218 कंपनियों में से कुल 34 कंपनियों को औद्योगिक प्रयोजन के लिए कुल रकबा 702.236 हेक्टेयर भूमि लैंड बैंक से सीएसआईडीसी लिमिटेड द्वारा आबंटित की गई है। इसमें शासकीय भूमि रकबा 594.088 हेक्टेयर और निजी भूमि रकबा 108.148 हेक्टेयर शामिल है। इन कंपनियों में से 53 कंपनियों ने स्थापित उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है।

27 कंपनियों के उद्योग निर्माणाधीन

27 कंपनियों के उद्योग निर्माणाधीन है, वहीं 80 कंपनियों में उद्योग स्थापना के लिए क्रियाव्यवहन प्रारंभ कर दिया गया है। शेष 32 कंपनियों द्वारा स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंत्री ने बताया कि विस्थापित 218 कंपनियों में 1,38,509 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। उद्योग प्रारंभ होने वाली इकाइयों में छत्तीसगढ़ के 16647 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया तथा उत्पादनरत इकाइयों में 16409.04 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया है।

निकाय चुनाव, ईडी की कार्रवाई पर बैज ने आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ रायपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर कांग्रेस भवन निर्माण के संबंध में ईडी की कार्रवाई, कथित जासूसी और नगरीय निकाय चुनाव की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।

वहां पर प्रदेश प्रभारी सहित बड़े नेताओं से मुलाकात कर राज्य की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देनी। बताया जाता है कि प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई की अनुसंधान के बाद बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा की पूरी रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं ईडी द्वारा कांग्रेस भवन सुकमा-कोटा की निर्माण लागत और अन्य मामलों में दिए गए समन के संबंध में भी जानकारी सौंपी।



संगठन की मजबूती पर जोर

विधानसभा चुनाव के बाद से संगठन में गुटबाजी के कारण पार्टी विरोधी बयान देने वाले कई नेताओं पर कार्रवाई की गई थी। उनमें से कुछ लोगों को पार्टी ने वापस भी ले लिया है। प्रदेश में निकाय चुनाव होने के बाद अब यहां पर संगठन को मजबूत करने कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। साथ ही नेताओं के बीच आपसी समन्वय बनाने पर प्रदेश के लिए भविष्य की योजनाओं से अवगत कराएंगे।

बताया गया है कि प्रभारी महामंत्री से पूछताछ के दौरान आए अन्य विषयों के संबंध में भी जानकारी दी। वहीं पीसीसी अध्यक्ष के राजधानी स्थित सरकारी आवास के बाहर पुलिस द्वारा की जाने वाली जासूसी की घटना की भी जानकारी दी।

संगठन में नियुक्तियों पर भी होगी चर्चा: बताया जाता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस दौरान संगठन में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों पर भी चर्चा करेंगे। प्रदेश

राजधानी के हर वार्ड में खुलेगा जन औषधि केंद्र



हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ रायपुर

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कालीवाड़ी चौक में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया और इसका अवलोकन किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप यह जन औषधि केंद्र खोला गया है, जहां बाजार से 80 से 90 प्रतिशत कम दामों पर दवाएं उपलब्ध होंगी। इससे आम जनता, विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोग, जो महंगी दवाइयों के कारण उचित इलाज नहीं करा पाते थे, उन्हें सौधा लाभ मिलेगा। राजधानी के सभी 70 वार्डों में 70 और पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 200 जन औषधि केंद्र खोलने की योजना है, जिससे न केवल गरीबों को सस्ती

दरों पर दवाएं मिलेंगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

श्री अग्रवाल ने यह कहा, जिला अस्पताल में ओपीडी के बाहर स्थित जन औषधि केंद्र को मुख्य मार्ग की ओर स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि मरीजों को अधिक सुविधा मिल सके। इसके लिए उन्होंने सांसद निधि से पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मैनेजर अनीस वोडितेलवर, निगम सभापति सुर्यकांत राठौर, पार्षद अमर गिदवानी, अंबर अग्रवाल, रवि सोनकर सहित विभागीय अधिकारी, मेडिकल स्टाफ और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

कांग्रेस की मांग, राज्य से गायब लड़कियों की खोज के लिए बनाएं एसआईटी

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ रायपुर

बिहार के पटना के रेड लाइट इलाके से छत्तीसगढ़ की 41 नाबालिक लड़कियों को बरामद किया जाना राज्य की भाजपा सरकार के माथे पर काला धब्बा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुकला ने कहा, एक तरफ सरकार महिला दिवस की शुभकामना का विज्ञापन छपाती है, इसी दिन यह छत्तीसगढ़ की लड़कियां पटना के रेड लाइट इलाके में बरामद हुई हैं। भाजपा सरकार हमारी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश से गायब हुई लड़कियों की पतासाजी के लिए तत्काल एसआईटी का

गठन कर युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाय।

उन्होंने कहा, राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी है। छत्तीसगढ़ का दूरस्थ इलाका जशपुर बस्तर मानव तस्करी का केंद्र बन गया है। जशपुर, पत्थलगांव जैसे इलाकों से महिलाओं को नौकरी के नाम पर लालच दे कर प्लेसमेंट एजेंसियां दिल्ली मुंबई में बंधक बना कर अमानवीय व्यवहार करती हैं। अनेकों सामाजिक संगठनों ने सरकार का कई बार ध्यान आकृष्ट कराया था। राज्य में काम करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों की कार्यप्रणाली की भी जांच होनी चाहिए, उनसे पूरा ब्योरा मांगा जाय।

महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा में विफल रही सरकार

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षा में विफल रही सरकार का निर्यात पर स्वागत उठाए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार महिलाओं को सस्ता सिलेंडर देने का दावा करती है, लेकिन दूधरी और ब्लेंड शराब को सस्ता करके महिलाओं के जीवन को और मुश्किल बना दिया है। श्री जोगी ने कहा, सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या कर रही है? बिहार के रोहतास जिले में छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ हो रहे शोषण के मामले इस सरकार की विफलता को उजागर करते हैं। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

शिक्षा भूमि

Admissions Open 2025-26

GYANDEEP ACADEMY

For Session 2025-26
Nursery to Class 8th

100% OFF ON ADMISSION FEE FOR FIRST 100 ADMISSION

Why choose Gyandeep Academy

- Hands-On Learning
- Stem Skills for Life
- Smart Classes
- Spacious Play Ground
- Creativity and Innovation
- Fun and Engaging
- CCTV Secure Campus
- Well Stocked Library

Call : 9651333701

Pt. D.D.U. Nagar (Near Appu Sweet House), Raipur (C.G.)

विद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ: सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम

रायपुर, 2025: शिक्षा ही सफलता की कुंजी है, और एक अच्छे विद्यालय या महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है। इसी दिशा में, राज्य के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस शैक्षणिक सत्र में छात्र-छात्राओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हैं, जहां वे अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।

विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया

विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कई विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के आधार पर हो रही है, वहीं कुछ विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन किया जा रहा है प्रमुख विशेषताएं:

- ✓ नवाचार आधारित शिक्षा प्रणाली
- ✓ स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय की सुविधाएँ
- ✓ सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों पर विशेष ध्यान
- ✓ अनुभवी शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया

राज्य के विभिन्न सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कला, प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में छात्र आवेदन कर सकते हैं।

प्रवेश के प्रमुख आधार:

- मेरिट लिस्ट एवं प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन
- छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ
- प्लेसमेंट एवं इंडस्ट्री-ओरिएंटेड कोर्स
- व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान

DIPLOMA IN MEDICAL LAB TECHNICIS

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा मान्यता प्राप्त

ELIGIBILITY
10+2 PASS
Any Stream

DURATION- 1 YEAR

100% JOB ASSISTANCE

ALSO AVAILABLE
OT, DIALYSIS, MPH/W,
HOSPITAL MANAGEMENT ETC.

MODERN INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCE (MIPS)
Near Shitla chowk, Jalgrih Marg Bhatagaon Raipur
7879043213

COLUMBIA GLOBAL SCHOOL

START YOUR JOURNEY WITH US
CBSE AFFILIATION NO. 3330367

ADMISSIONS OPEN 2025-26

NURSERY-IX & XI LIMITED SEATS AVAILABLE

MATHS | COMMERCE | HUMANITIES | SCIENCE

89828 88999

NEAR VIDHAN SABHA, TEKARI, RAIPUR
www.columbiaglobalschool.com

खबर संक्षेप

अकोली में मानसगान समारोह 10 से 12 तक तरपोंगी। समीपस्थ ग्राम अकोली (देवरी) में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 10 से 12 मार्च तक त्रि दिवसीय वार्षिक रामायण मानस गान समारोह का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम 10 मार्च को शाम 4 बजे दीप प्रज्वलित के साथ शुभारम्भ होगा। समापन 12 मार्च को शाम 5 बजे सम्पन्न होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सरोज चंद्रवंशी जिला पंचायत सदस्य, राकेश यादव धरसीवा भाजपा मंडल अध्यक्ष, मानसिंग वर्मा जनपद सदस्य, श्रवण वर्मा सरपंच देवरी अकोली विशिष्ट अतिथि प्रह्लाद सिंह वर्मा, हेमंग हनुमंता, ओमप्रकाश साहू पार्षद रांघवाडा, देवेन्द्र वर्मा जनपद सदस्य सगुनी, संतोष वर्मा अध्यक्ष ग्राम विकास समिति अकोली होंगे। सभी मानस मण्डली को सदाबहार दानदाताओं के सहयोग से 1011 रु प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा। यह मानस गान समारोह का 38 वां वर्ष है।

ग्राम सगुनी में तीन दिनी 9 से मानसगान समारोह तरपोंगी। समीपस्थ ग्राम सगुनी में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 9 से 11 मार्च तक तीन दिवसीय वार्षिक रामायण मानस गान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम 9 मार्च को शाम 4 बजे दीप प्रज्वलित के साथ शुभारम्भ होगा। समापन 11 मार्च को शाम 4 बजे होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टंक राम वर्मा राजस्व एवं खेलकूद मंत्री होंगे।

महिला दिवस पर उन...
गर्भ महिला कोच में अब महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यह स्थिति यात्रियों की अनुविधा का कारण बन रही है। महिला कोच में बैठे पुरुषों को हटाने वाला कोई नहीं है। मीडा के कारण आरपीएफ भी कोच के यात्रियों को बाहर नहीं निकाल रही।
108 इमरजेंसी कॉल में...
सुविधा के लिए 108 इमरजेंसी कॉल की सुविधा दी गई है, जिसका दुरुपयोग करने वाले भी कम नहीं हैं। जस्ुरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए कंपनी द्वारा कॉल सेंटर का संचालन किया जाता है, जहां आने वाले हर फोन को अटेंड करना वहां के कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। आकड़े चौकाने वाले हो सकते हैं कि यहां हर माह करीब दस हजार लोग बैफिजूल कॉल कर स्टॉफ को परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन कॉल से होती है, जो

चुनाव
नगर पंचायत कुरा अध्यक्ष गोविंद सहित 15 पार्षदों ने ली शपथ

हरिभूमि न्यूज >>> धरसीवा
शनिवार को एसडीएम नंद कुमार चौबे के समक्ष नगर पंचायत कुरा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद साहू सहित नगर के कुल 15 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों की शपथ ग्रहण नगर पंचायत बाजार चौक में किया। इस अवसर धरसीवा विधायक अनुज शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता सहित हजारों ग्रामीण उपस्थित थे।
शपथ ग्रहण के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद साहू ने कहा कि यह नगर पंचायत की नहीं, बल्कि जनता की सरकार है। जनता की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता होगी और हर नागरिक को सहज, सरल व पारदर्शी प्रशासन मिलेगा जनता पारंपरिक सरकारी ढांचे से अलग हटकर है, जिससे लोग बिना किसी झिझक के सीधे अपनी बात रख सकें। श्री साहू ने कहा कि उनकी जनसेवा की निष्ठा और जनता से सीधा जुड़ाव ही इस ऐतिहासिक जीत का कारण बना। जनता ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर भरोसा जताया और उन्हें नगर की बागडोर सौंपी जिस पर मैं खरा उतरा उतरूंगा।

जनता की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता से होगी : नपां अध्यक्ष



नगर पंचायत में होगा विकास : अनुज
इस मौके पर विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में नगरपंचायत कुरा में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा अब और तेज गति के साथ पूरे नगर का जन आकांक्षाओं के साथ समुचित विकास की अवधारणाओं के पूरा किया जाएगा साथ ही व्यवस्थागत सुधार होंगे और यहां की नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कुरा में बड़ी परियोजनाओं का कार्य तेजी से चल रहा है। कई करोड़ों रुपये की विकास कार्य चल रहे हैं, जो नगर के विकास को नई दिशा देने में सहायक होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विष्णुदेव सरकार ने नगर पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे नगर के नागरिकों को और भी बेहतर जीवन की सुविधाएं मिल सकेंगी। धरसीवा विधायक अनुज शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता अंजय शुक्ला, पूर्व मण्डल अध्यक्ष डॉक्टर केके वर्मा, पुरुषोत्तम यादव, एसडीएम नंद कुमार चौबे, तहसीलदार बाबूलाल कुर्ते, सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सहित नगरवासी उपस्थित थे।

अमनपुर नपा के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्षद समेत पार्टी नेता नहीं पहुंचे

अमनपुर। नगर पालिका अमनपुर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन खेल स्टेडियम अमनपुर में किया गया। नगर पालिका अमनपुर में अध्यक्ष सहित बहुमत के साथ 10 पार्षदों ने जीत हासिल किया है उसी दृष्टिकोण से वृहद आयोजन की तैयारी की गई थी लेकिन इस कार्यक्रम में भाग लेने कांग्रेस के एक भी पार्षद उपस्थित नहीं हुए न ही कांग्रेस के बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, वहीं मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केवल विधायक इन्द्रकुमार साहू शामिल हुए उनके समर्थक व भाजपा कार्यकर्ता मुख्य मंच में उपस्थित रहे। एसडीएम रवि सिंह द्वारा अध्यक्ष उत्रनेसे सहित पार्षद गणेश धुव, चंपा लोदेकर, मीना साहू, रूपनारायण साहू, आसकरण गिलहरे सहित भाजपा के चार व निर्दलीय पार्षदों को दिलाई गई। उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष उत्रनेसे गहिरवार एवं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू के बीच खिंचतान के चलते कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस कार्यक्रम से पूरी तरह से अलग थे। वहीं भाजपा के लोगों का मंच में उपस्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि भाजपा पार्टी का ही अध्यक्ष नगर पालिका में निर्वाचित हुआ है।

पालिका के विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी : विधायक
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक इन्द्रकुमार साहू ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते कहा कि लोकतंत्र में जनता का सम्मान करते हुए जनता के भावनाओं के अनुरूप सभी को मिलजुलकर कार्य करना चाहिए लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े भव्य आयोजन में नगर पालिका के पार्षद साथी भाग नहीं लिए हैं यहां की वर्षों से राजनीति करने वाले प्रमुख व्यक्ति पार्षदों को शपथ लेने से वंचित कर दिया उल्टा उनके द्वारा प्रचार किया जाता है कि विधायक के द्वारा धमकी व अपहरण किया जा रहा है आज सच्चाई सबके सामने है। विधायक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगरवासियों को आश्चर्य करता हूँ कि अमनपुर नगर पालिका के विकास में किसी प्रकार का बाधा नहीं आने दूंगा, अमनपुर पालिका को एक मॉडल के रूप में आने वाले समय में दर्जा मिले नगर पालिका के अध्यक्ष व सभी पार्षदों एक परिवार की तरह मिल जुलकर विकास के लिए कार्ययोजना बनाये उसे पूरा करने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़े लिए हम सभी को आश्चर्य करते हैं कि नगर के विकास के लिए हर परिस्थिति में हमारा सहयोग रहेगा।



दाऊ पोषन लाल सहित तीन स्कूलों में बनेंगे शौचालय
धरसीवा। छत्तीसगढ़ सरकार स्कूलों के लिए नया अभियान शुरू कर रही है। योजना है कि प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के हाई स्कूलों सहित प्रत्येक ग्राम पंचायतों के एक-एक स्कूल में आदर्श शौचालय का निर्माण किया जाए। इन शौचालयों में कम लागत में अच्छी गुणवत्ता का निर्माण कार्य होगा। इन शौचालयों में रनिंग वाटर, ड्रेनेज व्यवस्था आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इनकी नियमित साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे जिससे तहत शनिवार को दाऊ पोषन लाल शासकीय स्कूल परसतराई, सेरीखेड़ी स्कूल, दोन्दे कला स्कूल में बनने वाले शौचालय के लिए विधायक अनुज शर्मा ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर धरसीवा सरपंच साहिल खान, जनपद पंचायत अध्यक्ष शकुंतला सेन, उपाध्यक्ष दिनेश खूंट, शाला विकास समिति अध्यक्ष व पूर्व सरपंच श्री हेमन्त वर्मा, कोशल साहू, चंद्रकांत साहू, लोकेश सेन, हुसैन खान सहित आला अधिकारी मौजूद रहे।

अनर्गल बातें करते हैं। कई तो अपना गुस्सा उतारने के लिए कॉल अटेंड करने वाले पर गालियों की बौछार करते हैं। कई ऐसी सेवा की मांग करते हैं, जो कंपनी के दायरे से बाहर हैं। फेक कॉल करने वाले भी कम नहीं होते और कई रॉग नंबर भी कॉल सेंटर में डायल किए जाते हैं। कई बार सड़क हादसे अथवा एंबुलेंस सेवा प्राप्त करने नाम पर यहां झूठी जानकारी भी दी जाती है, जिसकी असलियत कॉल सेंटर से मिली सूचना के बाद एंबुलेंस के घटना स्थल पर पहुंचने पर सामने आती है।

पेज 11 के शेष...
के छत पर पहुंची तो पुलिस को वहां पांचो जुआरी गोलु से जुआ खेलते मिले। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, वे रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पांचो जुआरी दाबा में खाना खाने के बहाने जुआ खेलने के लिए पहुंचे थे।
जिसका 28 लाख...
के प्रत्येक सदस्य दो से ज्यादा भूमि के मालिक बन गए हैं। यानी एक सदस्य के नाम पर अलग-अलग खसरा नंबर व रकबा की 3 से 4 भूमि को ऑनलाइन रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया है। हरिभूमि की पड़ताल में पता चला कि है कि ग्राम टोकरो में खसरा नंबर 1/5 से लेकर 1/14 तक कुल रकबा 0.460 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण से पूर्व यह पूरी भूमि रामआसरा साहू के नाम पर दर्ज थी, लेकिन

का भुगतान कर दिया है।
11 लाख मुआवजा देना था, कर दिया 1 करोड़ 9 से ज्यादा का भुगतान- इसी गांव में ईश्वर सतनामी केनाम पर दर्ज रकबा 0.1829 हेक्टेयर भूमि के एवज में 11 लाख 2 हजार 490 रुपए का मुआवजा देना था, लेकिन इस भूमि को खसरा नंबर 3/1 से लेकर 3/6 तक 6 टुकड़ों में विभाजित कर 1 करोड़ 9 लाख 90 हजार 973 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। यह भूमि ईश्वरलाल के अलावा उसकी पत्नी गीता बाई, बेटा कोमल, बेटा मनीषा, मानसी एवं माही के नाम पर चढ़ाई गई है।
13 लाख की जगह 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा बांट दिया मुआवजा- इस गांव के मनहरण साहू परिवार में कुल लोगों के नाम पर रकबा 0.220 भूमि दर्ज थी। इस भूमि को भी 5 टुकड़ों में खसरा नंबर 82/1 लेकर 82/5 में बाँटकर परिवार के 5 सदस्य मनहरण, उसके का भुगतान किया गया है। इस तरह परिवार को 2 करोड़ 47 लाख 96 हजार 396 रुपए ज्यादा राशि

चढ़ाकर उसका भुगतान कर दिया गया। भूमि का वास्तविक मुआवजा राशि 13 लाख 26 हजार 125 रुपए निकल रहा था, लेकिन फर्जीबाड़ी कर 1 करोड़ 32 लाख 402 रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस केस में मनहरण के नाम पर दो जमीन का मुआवजा दिया गया है।
नहीं बन पाई महिलाएं...
निगम के लिए गले की फांस बनकर रह गई है। गारमेट फैक्ट्री स्थापित करने नगर निगम ने प्रथम चरण में 4 करोड़ रुपये खर्च कर इफ़ास्ट्रक्चर खड़ा तो कर दिया, पर इसका सेंट अप तैयार करने फंड नहीं है। इस कार्य के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपये चाहिए। अफसरों का कहना है, पोपीपी मोड पर इसका संचालन होगा, इसके लिए ऑनलाइन टेंडर कर एजेंसी तय की जायेगी। वह 10 साल तक गारमेट फैक्ट्री का संचालन करेगी।

आभार

जनता के अपार समर्थन के लिए हृदय से आभार प्रिय क्षेत्रवासियों

मैं देवेन्द्र वर्मा, तिल्दा जनपद क्षेत्र क्रमांक 2 से चौथी बार जनपद सदस्य पद हेतु 2768 वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए आप सभी मतदाताओं, शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

आप सभी के सहयोग, विश्वास और प्रेम के कारण ही यह जीत संभव हो पाई है। यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे क्षेत्र की जीत है। आपकी सेवा और क्षेत्र के विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पहले से भी अधिक दृढ़ रहेगी।

मैं आश्वस्त करता हूँ कि सगुनी, खैरखूंट, बलौदी खुर्द, सड़हू और तरपोंगी ग्राम के हर नागरिक की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा।

आपका सेवक देवेन्द्र वर्मा ▶ जनपद सदस्य, तिल्दा जनपद क्षेत्र क्रमांक 02

खबर संक्षेप

आयुर्वेद महाविद्यालय में स्वर्ण प्राशन कल



रायपुर। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर के कौमारभूत्व-बालरोग विभाग में सोमवार 10 मार्च को पुष्य नक्षत्र स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रथम 800 बच्चों को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से प्राप्त स्वर्णप्राशन किट एवं बाल रक्षा किट वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में आयुष की संचालक इफ्तत आरा मुख्य अतिथि होंगी। संयुक्त संचालक डॉ. सुनील दास विशिष्ट अतिथि होंगे और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जीआर चतुर्वेदी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्वर्ण प्राशन का सेवन सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कराया जाएगा। वहीं बाल रक्षा किट और स्वर्णप्राशन किट वितरण सुबह 10 बजे से 11.30 तक किया जाएगा। इसके लिए बच्चे का आधारकार्ड, माता-पिता के मोबाइल नंबर आवश्यक होगा।

मू-माफिया और अफसरों के खिलाफ अपराध दर्ज कराएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जमीन घोटाले में संलिप्त सभी भूमाफिया, अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के साथ ही घोटाले की राशि वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की। इसी दौरान श्री अग्रवाल ने कहा कि शासकीय जमीनों की बंदरबांट और जमीन मुआवजा घोटाले के सभी दोषियों के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध करने के साथ ही घोटाले की राशि वसूलने की कार्रवाई भी की जानी चाहिए, जमीन के मुआवजे का घोटाला तो अभी केवल 7 गांव का सामने आया है, जबकि इस मामले में 300 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, सभी अधिग्रहित जमीनों की भी जांच की जानी चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि रायपुर जिले अभनपुर के सात गांव की ही अधिग्रहित जमीनों की जांच में ढाई सौ करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका है, 300 गांव की अधिग्रहित जमीनों की जांच में स्थिति क्या होगी, इसका आकलन भी किया जाना मुश्किल है, लेकिन एक-दो अफसरों के सिवाय इस मामले में भूमाफिया और संबंधित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है।

अस्पतालों को प्राधिकार प्राप्त करने की समयसीमा में वृद्धि

रायपुर। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एचपीआई) की पहल पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी) ने अस्पतालों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकार प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के आदेशानुसार बिना उक्त प्राधिकार के अस्पताल का संचालन करने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधान हैं। इसके तहत पूर्व में सीईसीबी ने सभी अस्पतालों को 31 दिसंबर 2023 तक प्राधिकार प्राप्त करने के निर्देश दिए थे।

निधन

इकबाल अहमद खान

रायपुर। झंडा चौक संजय नगर निवासी इकबाल अहमद खान का 8 मार्च को इतैकाल हो गया, उन्हें बैरन बाजार कब्रिस्तान में सुपुर्दे-खाक किया गया। वे बिलाल भाई व अकबर भाई के पिता थे।

संध्या सहस्त्रबुद्धे

रायपुर। जनकबाड़ा निवासी संध्या सहस्त्रबुद्धे का 8 मार्च को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 9 मार्च को सुबह मारवाड़ी श्मशानघाट में किया जाएगा। वे सुवर्णा, कांचन, कौस्तुभ की माता और प्रकाश, प्रदीप व श्याम शेष की बहन थीं।

लगातार सिरदर्द के कारण हो सकता है काला मोतिया, सालभर में 2 हजार से ज्यादा पीड़ित

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

सिर अथवा भौंह के पास लगातार सिरदर्द होना अथवा लगातार चश्मे का नंबर बदलने की वजह काला मोतिया हो सकता है। इस बीमारी का अगर सही समय पर इलाज नहीं होता, तो यह आंखों की रोशनी छीन सकता है। लापरवाही की वजह से हर साल करीब दो हजार इससे पीड़ित हो जाते हैं। लोगों को इस गंभीर बीमारी से अवगत कराने ग्लॉकोमा सप्ताह का आयोजन रविवार से किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग अपने अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत आंखों से संबंधित बीमारियों के उपचार की सुविधा दे रहा है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद की निशुल्क सर्जरी की जा

रोशनी छीन सकती है बीमारी, लोगों जागरूक करने आज से ग्लॉकोमा सप्ताह



तैयारियों पर हुई बैठक

कलेक्टर गौरव सिंह के निदेश पर 9 से 15 मार्च तक चलने वाले ग्लॉकोमा सप्ताह की तैयारियों के लिए बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गयी और जनजागरण पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. निधि बलारदे एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी की उपस्थिति में जिला नोडल अधिकारी डॉ. समता रंगारी ने बैठक ली। बैठक के दौरान मौजूद महिला दिवस पर महिला नेत्र सहायकों को सम्मिलित भी किया गया।

रही है। चिकित्सकों के मुताबिक काला मोतिया यानी ग्लॉकोमा ऐसी बीमारी है, जिसकी सही समय पर पहचान हो जाए, तो अंधत्व की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। अगर आम लोग अपनी आंखों के प्रति थोड़े भी संवेदनशील हों, तो इस बीमारी की पहचान कर सही समय पर इसका इलाज करवा सकते हैं। इसमें लगातार सिर दर्द होना और चश्मे का नंबर बदलना, तस्वीर का धुंधला दिखना इसके लक्षण हो सकते हैं। अक्सर इन बातों को लोग नजर अंदाज कर जाते हैं जो उनकी आंखों के लिए घातक हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि बरती जा रही लापरवाही की वजह से हर साल करीब दो हजार लोग इस समस्या से पीड़ित होकर इलाज के लिए विभिन्न अस्पताल तक पहुंचते हैं।

म्यूल् अकाउंट के माध्यम से संचालित किया जा रहा क्रिकेट सट्टा

ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने किराए पर लिए जा रहे अकाउंट

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

ऑनलाइन टगी की घटना से लेकर क्रिकेट सहित अन्य तरह का सट्टा संचालित करने इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल् अकाउंट को रोकना साइबर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। पुलिस ने हाल के दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा संचालित करने के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके द्वारा म्यूल् अकाउंट के माध्यम से सट्टे की रकम ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। सट्टा में म्यूल् अकाउंट इस्तेमाल करने की प्रथा महादेव सट्टा एप के बाद से शुरू हुई है।

Match Odds	CASHOUT	
Min:- Max:1	BACK	LAY
India Masters	1.38 84.39	1.39 29.77
West Indies Masters	3.55 21.85	3.65 31.91

सटोरियों ने की तैयारी
चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता समाप्त होने के साथ ही आईपीएल क्रिकेट शुरू हो जाएगा। आईपीएल शुरू होने के पूर्व सटोरिए राज्य के बाहर अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर क्रिकेट सट्टा संचालित करने टीम तैयार करने लगे हैं। इसकी पुष्टि पिछले दिनों डीडीनगर थाना क्षेत्र में पकड़े गए दो बुकी के पूछताछ तथा उनके मोबाइल खंगालने के बाद हुई है।

म्यूल् अकाउंट होने की वजह से बुकी को जल्दी से पहचान नहीं हो पाती। ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वालों को उनके द्वारा क्रिकेट सट्टा के लिए की जल्दी से पहचान नहीं हो पाती। ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वालों

रायपुर में आयोजित मैच के लिए सट्टा

क्रिकेट सट्टा का जुलूम लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रायपुर में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर्स क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए भी सट्टा संचालित करवाने वाले दांव लगा रहे हैं। पहले दिन भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच के लिए टॉस जीतने से लेकर मैच जीतने वाली टीम के लिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का संचालन किया जा रहा है।
टगी की रकम से भुगतान होने की आशंका
सट्टा का रिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। बुकी से लेकर आईडी लेवने वाले लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसे में ऑन लाइन फ्रॉड करने वाले जालसाजों के माध्यम से ऑनलाइन टगी की रकम क्रिकेट सट्टा में निवेश किए जाने की पुलिस को आशंका है।
ऐसे में खेलने वालों पर भी दर्ज होगी एकआईआर
डीएसपी काइम के मुताबिक म्यूल् अकाउंट से पैसों के लेन-देन होने की स्थिति में किराए पर अकाउंट देने वाले के साथ किराए पर अकाउंट लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होती ही है, ऐसे में म्यूल् अकाउंट के माध्यम से किसी दूसरे के अकाउंट में सट्टे की रकम ट्रांसफर होने की स्थिति में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

रंग मंदिर, गुरुकुल शिक्षण संस्थान पर 4 करोड़ बकाया, निगम ने किया नोटिस जारी

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर।

नगर निगम ने भातखंडे ललित शिक्षा समिति को रंगमंदिर और गुरुकुल व्यावसायिक परिसर के करीब 4 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर भुगतान के लिए नोटिस जारी किया है। नगर निगम जोन 4 कमिश्नर ने समिति को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर भुगतान करने के लिए कहा है, अन्यथा संबंधित संपत्ति को

सीलबंद करने की चेतावनी दी है। साल 2011-12 से लेकर 2024-25 तक क्रमशः कुल राशि बकायादारों से राजस्व वसूली के लिए अभियान चला रहा है। सभी 10 जेन में जोन कमिश्नर को निगम आयुक्त ने बकाया राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। इसी कड़ी में नगर निगम जोन 4 कमिश्नर ने भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति को रंगमंदिर और गुरुकुल व्यावसायिक परिसर का


भुगतान नहीं किये जाने पर सीलबंदी

उधारी की रकम चुकाने से बचने मेल आईडी हैक कर डेटा डीलीट किया

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

मकान निर्माण के लिए ली गई उधारी रकम चुकाने से बचने एक व्यक्ति ने अपने ही परिचित का मेल आईडी हैक कर डेटा लीक कर धोखाधड़ी की है। पीडित की शिकायत पर पुलिस उसके परिचित के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है।

जिनका डेटा डीलीट हुई था, उसे साइबर पुलिस से डेटा डीलीट करने वाले की जानकारी मिली। मूलतः मध्यप्रदेश, अनूपपुर के रहने वाले शंख नियाजुद्दीन ने दिलशाद अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नियाजुद्दीन ने पुलिस को बताया है कि वो पूर्व में प्रोफेसर कालोनी में किराए के मकान में रहता था। इस दौरान उसका परिचय दिलशाद से हुआ। दिलशाद ने कमल विहार में मकान निर्माण करने पैसों की



डेटा डीलीट होने से कारोबारी प्रभावित

नियाजुद्दीन ने पुलिस को बताया है कि उसके मेल आईडी की जानकारी दिलशाद को पहले से थी। दिलशाद ने अपने आई इमरान के साथ मिलकर नियाजुद्दीन की मेल आईडी को हैक किया था। नियाजुद्दीन के अनुसार मेल आईडी के डेटा डीलीट होने से उनके व्यवसाय से जुड़ी सभी लेन-देन की जानकारी डीलीट हो गई। इसके कारण उसे 10 से 11 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। नियाजुद्दीन के अनुसार अपने दिलशाद को दो गई रकम की जानकारी अपने वाट्सएप में पूर्व से ही सहेजकर रखी थी।

पेज 11 के शेष

महिला दिवस पर उन...
गाए महिला कोच में अब महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यह स्थिति यात्रियों की असुविधा का कारण बन रही है। महिला कोच में बैठे पुरुषों को हटाने वाला कोई नहीं है। मीड के कारण आरपीएफ भी कोच के यात्रियों को बाहर नहीं निकाल रही।

108 इमरजेंसी कॉल में...
सुविधा के लिए 108 इमरजेंसी कॉल की सुविधा दी गई है, जिसका दुरुपयोग करने वाले भी कम नहीं हैं। जस्वरामबाई को मदद पहुंचाने के लिए कंपनी द्वारा कॉल सेंटर का संचालन किया जाता है, जहां आने वाले हर फोन को अटेंड करना वहां के कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं कि यहां हर माह करीब दस हजार लोग बेफिजूल कॉल कर स्टॉफ को परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन कॉल से होती है, जो अनर्वाल बातें करते हैं। कई तो अपना गुस्सा उतारने के लिए कॉल अटेंड करने वाले पर गालियों की बौछार करते हैं। कई ऐसी सेवा की मांग करते हैं, जो कंपनी के दायरे से बाहर हैं। फैंक कॉल करने वाले भी कम नहीं होते और कई रंग नंबर भी कॉल सेंटर में डॉयल किए जाते हैं। कई बार सड़क हादसे अथवा एंजुलेंस सेवा प्राप्त करने नाम पर यहां झूठी जानकारी भी दी जाती है, जिसकी असुविधा कॉल सेंटर से मिली सूचना के बाद एंजुलेंस के घटना स्थल पर पहुंचने पर सामने आती है।

जिसका 28 लाख...
के प्रत्येक सदस्य दो से ज्यादा भूमि के मालिक बन गए हैं। यानी एक सदस्य के नाम पर अलग-अलग खसरा नंबर व रकबा की 3 से 4 भूमि को ऑनलाइन रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया है। हरिभूमि की पड़ताल में पता चला कि है कि ग्राम टोकरो में खसरा नंबर 1/5 से लेकर 1/14 तक कुल रकबा 0.460 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण से पूर्व यह पूरी भूमि रामआसरा साहू के नाम पर दर्ज थी, लेकिन अधिक भुआवजा दिलाने के लिए इस भूमि को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस तरह कुल खसरा नंबर की भूमि को 0.050 हेक्टेयर से लेकर 0.040 हेक्टेयर में 10 टुकड़ों में विभाजित कर रामआसरा पिता भुखुड साहू, तिजिया बाई पति रामआसरा साहू, नीरंजन पिता रामआसरा साहू एवं लगनी पिता रामआसरा साहू के नाम पर चढ़ा दी गई।

28 लाख की जगह 2 करोड़ 76 लाख का भुगतान - जांच रिपोर्ट में रामआसरा के नाम पर दर्ज भूमि के अधिग्रहण के एवज में प्रभावित परिवार को मुआवजा की राशि 28 लाख 7 हजार 656 रुपये निकलता है, जबकि फर्जावाड़ा कर इस परिवार को 2 करोड़ 76 लाख 4 हजार 52 रुपये का भुगतान किया गया है। इस तरह परिवार को 2 करोड़ 47 लाख 96 हजार 396 रुपये ज्यादा राशि का

भुगतान कर दिया है। 11 लाख मुआवजा देना था, कर दिया 1 करोड़ 9 से ज्यादा का भुगतान- इसी तरह गंग में ईश्वर सतनामी केनाम पर दर्ज रकबा 0.1829 हेक्टेयर भूमि के एवज में 11 लाख 2 हजार 490 रुपये का मुआवजा देना था, लेकिन इस भूमि को खसरा नंबर 3/1 से लेकर 3/6 तक 6 टुकड़ों में विभाजित कर 1 करोड़ 9 लाख 90 हजार 973 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। यह भूमि ईश्वरलाल के अलावा उसकी पत्नी गीता बाई, बेटा कोमल, बेटा मनीषा, मानसी एवं माही के नाम पर चढ़ाई गई है। 13 लाख की जगह 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा बांट दिया मुआवजा- इस गांव के मगरहरण साहू परिवार में कुल लोगों के नाम पर रकबा 0.220 भूमि दर्ज थी। इस भूमि को भी 5 टुकड़ों में खसरा नंबर 82/1 लेकर 82/5 में बांटकर परिवार के 5 सदस्य मगरहरण, उसके भाई तुलाराम, महेशराम व बहन मानबाई के नाम पर चढ़ाकर उसका भुगतान कर दिया गया। भूमि का वास्तविक मुआवजा राशि 13 लाख 26 हजार 125 रुपए निकल रहा था, लेकिन फर्जावाड़ा कर 1 करोड़ 32 लाख 402 रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस केस में मगरहरण के नाम पर दो जमीन का मुआवजा दिया गया है।

नहीं बन पाई महिलाएं...
निगम के लिए गले की फांस बनकर रह गई है। गारमेट फैक्ट्री स्थापित करने नगर निगम ने प्रथम चरण में 4 करोड़ रुपये खर्च कर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा तो कर दिया, पर इसका सेंटअप तैयार करने फंड नहीं है। इस कार्य के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपये चाहिए। अफसरों का कहना है, पीपीपी मॉड पर इसका संचालन होगा, इसके लिए ऑनलाइन टेंडर कर एजेंसी तय की जायेगी। वह 10 साल तक गारमेट फैक्ट्री का संचालन करेगी।

एनएसयूआई पदाधिकारियों ने चलाया सदस्यता अभियान

रायपुर। देश के सबसे बड़े छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) द्वारा छात्रों के बीच संगठन की पहुंच बढ़ाने और उन्हें जोड़ने के उद्देश्य से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एनएसयूआई पदाधिकारियों ने छात्रों से मुलाकात की और संगठन की विचारधारा, उद्देश्यों और छात्रहित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को एनएसयूआई संगठन की गतिविधियों, उनके अधिकारों और संगठन द्वारा विभिन्न

शोक संदेश

विधि के विधान के समक्ष नतमस्तक होते हुए अत्यंत दुःख के साथ स्वर्गित करण पड़ रहा है कि मेरे परम पूज्य पतिव्रत श्री रामकुमार नायक जी का स्वर्गवास फाल्गुन कृष्ण पक्ष 09 दिनांक 28 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार को हो गया है। जिनका देहवापन दिनांक 09.03.2025 (रविवार) को होगा। अतः इस दुःखद सण में सन्ममनित होकर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

कार्यक्रम स्थल
गांधी बस-संकाय (रैमनगर)
तालब कार्यालय - दोपहर 12.00 बजे

निजीत
श्रीमती कमला नायक (पति-)
प्रभाकर - संगीता नायक (पुत्र-पुत्रवत्)
हरीशंकर- विभा नायक (पुत्र-पुत्रवत्)
श्री. 8349764686, 9668317713

शोककुल
राधेश्याम, महेश कुमार, बुद्धेश्वर, सुधेश्वर, वीर-नंद कुमार शिवकुमार, अलखराम, पुरुषोत्तम, विनोद कुमार, कुलदीप, पालेदार, अरुण, पलाश एवं समस्त नायक परिवार बनसंकाय।

HEALTH TOWN

वैटिकोस वेस & वैस्कुलर क्लिनिक | वैटिकोज वेज्स बन सकती है गंभीर समस्या, न करें नजर अंदाज

309, तिसरी मंजील, लालगंगा विजनेस पार्क, पचपेड़ी नाका, रायपुर, मो.: 7400628099

अहलूवालिया हॉस्पिटल
नेमीचंद गली, रामसागर पार्क, प्रभाट टॉकीज के पास, स्टेशन रोड रायपुर
☎ 0771-4050006, 81031 28515
डॉ. एस.के. अहलूवालिया | डॉ. गौरव अहलूवालिया
M.B.B.S., DLO | M.B.B.S., D.N.B.-ENT, M.N.A.M.S.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 0771-4242213, 7987119756, 9303508130

खबर संक्षेप

फसल उत्पादन बढ़ाने

कृषकों को प्रशिक्षण

रायपुर। सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा कृषकों को फसल उत्पादन बढ़ाने, वैज्ञानिक भंडारण के उपयोग और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने प्रशिक्षण दिया। इसके लिए निगम 10 व 11 मार्च को महासमुंद और 11 व 12 मार्च को राजनांदगांव के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें करीब 45-45 कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भंडारण प्रबंधक एस.के. यादव एवं राकेश डडसेना ने बताया कि इन केंद्रों में विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं भंडारण गृह के अधिकारी व्याख्यान व अन्य माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षित करेंगे। इस दौरान कृषकों को भंडारण गृह का भ्रमण भी कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के समापन पर प्रत्येक किसान को एक-एक किंबटल बिन व बीज दिया जाएगा।

अब तक नहीं आया एमडी-एमएस का परिणाम

रायपुर। आयुष विवि के जिम्मेदारों के आशवासन के बाद भी चिकित्सा महाविद्यालय के पीजी का परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है। परिणाम नहीं आने के कारण छात्र अपने आगे की पढ़ाई के साथ अन्य फेसल ले पाने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ डाक्टर्स फेडरेशन ने कुलपति से मिलकर परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग की थी। पीजी बैच 2021-22 की एमडी/एमएस मुख्य परीक्षाएं जनवरी में संपन्न हो चुकी हैं, मगर परिणाम अब तक घोषित नहीं हो पाया है।

चश्मा दुकान वाले बन गए आंखों के डाक्टर, स्वयं कर रहे ग्राहकों की जांच, दे रहे नंबर

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर।

बदलती दिनचर्या की वजह से अब नजर कमजोर होने की समस्या आम हो गई है और हर दूसरा शख्स चश्मा लगा रहा है। बढ़ते उपयोग की वजह से दुकान वाले आंखों के डाक्टर बनकर आने वाले ग्राहकों की जांच कर चश्मे का नंबर तय कर रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड जांच के दावों के बीच नंबर बदलने पर आंखों से खिलवाड़ होने की आशंका भी बनी हुई है।

राजधानी के लगभग सभी इलाकों में चश्मे की दुकान मौजूद है और 80 फीसदी दुकानों में आंखों के नंबर की जांच की सुविधा दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक आंखों की जांच और नंबर तय करने का काम नेत्र चिकित्सकों का होता है, ताकि संबंधित व्यक्ति के विजन

ज्यादातर दुकानों में कंप्यूटराइज्ड जांच करने का दावा, आंखों से खिलवाड़ की आशंका



छोटे से लेकर बड़े तक सबको समस्या

जानकार सूत्रों का कहना है कि आंखों की समस्या से छोटे से लेकर बड़े तक सभी पीड़ित हो रहे हैं। बच्चों में कोरोनाकाल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई से लगी मोबाइल की लत, टीवी का ज्यादा उपयोग वही बड़ों में बदलती लाइफस्टाइल और खानपान के साथ ज्यादा स्क्रीन टाइम नजर कमजोर कर रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर पेश किए जाने वाले आंकड़े इसके सबूत भी होते हैं।

में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए उनके द्वारा विभिन्न सावधानी बरतते हुए आंखों की जांच की जाती है। चश्मे की दुकानों में किसी नेत्र चिकित्सक की सुविधा नहीं होती और ना ही दुकानदार आंखों की जांच की विशेषज्ञता रखता है। इसका असर चश्मा लगाने वाले शख्स की आंखों पर हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चश्मे की दुकान में आंखों की जांच नहीं हो सकती, ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर दिए जाने वाले नंबर सही हैं, इसकी विश्वसनीयता की गारंटी नहीं ली जा सकती। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जिसमें नया चश्मा लगाने के बाद सिरदर्द, धुंधला दिखना जैसी शिकायत लेकर लोग उन तक पहुंचते हैं। जांच और पूछताछ में यह पता चलता है कि नंबर के लिए उनके द्वारा आंखों की जांच किसी चश्मा दुकान से कराई गई है।

10 मार्च को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

चैबर चुनाव : मतदाता सूची में किया त्रुटि सुधार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

राजधानी के चैबर भवन में शनिवार को छत्तीसगढ़ चैबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के निर्वाचन अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें मतदाता सूची में त्रुटि सुधार किया गया। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 मार्च को किया जायेगा।

चैबर चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिवराज भंसाली, निर्वाचन अधिकारी प्रकाश गोलछा, रमेश गांधी, महावीर तालेड़ा, अनिल कुचेरिया, और चुनाव कार्यालय प्रभारी एसएम रावते उपस्थित रहे।

निर्वाचन अधिकारी प्रकाश गोलछा ने बताया कि मतदाता सूची में त्रुटि सुधार के लिए शनिवार को दोपहर 2 बजे तक अंतिम तिथि के

14 अप्रैल से 10 फेज में होगा चैबर चुनाव

प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन छत्तीसगढ़ चैबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए कार्यकारिणी चुनाव के लिए 14 अप्रैल से 10 चरणों में मतदान किया जायेगा। 109 पदों के लिए 27 हजार से ज्यादा सदस्य मतदान कर अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, और कोषाध्यक्ष पदरहेंगे।



दिन समय-सीमा में प्राप्त मतदाताओं के नाम में तर्कनीकी त्रुटि को सुधार किया गया। उन्होंने बताया कि इन मतदाताओं के नाम में सुधार हुआ है, उनकी संशोधित सूची अंतिम मतदाता सूची के अंतिम पृष्ठ पर लगाई जाएगी। चैबर चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का

प्रकाशन 10 मार्च को शाम 5:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रकाशित की जावेगी। इसके साथ ही चैबर के वेबसाइट में 10 मार्च को शाम 5:00 बजे अपलोड कर दी जाएगी। मतदाता चैबर के वेबसाइट में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जिलेवार मतदान केन्द्र इस तरह से

- 14 अप्रैल दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल मनेन्द्रगढ़, सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर
- 15 अप्रैल मेगोनाइट हिन्दी हायर सेकेंडरी स्कूल धमतरी, 16 अप्रैल को सरस्वती शिशु मंदिर लक्ष्मीपुर रायगढ़
- 20 और 21 अप्रैल अवसेन मवन सेक्टर 6 झिलाई
- 24 अप्रैल उदयावल मवन राजनांदगांव, 27 अप्रैल झूलालाल मंगल मवन झिलाई
- 3 मई गुजराती शाला मवन देवेन्द्र नगर रायपुर, 4 मई सरस्वती शिशु मंदिर देवेन्द्र नगर में मतदान होगा।

दो साल से उधार में चल रहे हैं आत्मानंद स्कूल

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव विनोद तिवारी ने कहा है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के हालात ऐसे हैं कि 2 साल से उधार में चल रहे हैं, क्योंकि इन स्कूलों को चलाने फंड भी नहीं है। सत्र खत्म होने वाला है, पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली आकस्मिक व्यय निधि की पूरी राशि 5 लाख अभी तक नहीं मिली है, नतीजतन स्कूल प्रबंधन के पास चाक, डस्टर, रजिस्टर, फिनाइल जैसी छोटी एवं अति आवश्यक सामग्री खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। पूर्व में स्कूलों को 5-5 लाख रुपए दिए जाते थे, वर्तमान में आत्मानंद स्कूलों की स्थिति को जानबूझकर खराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

सरकार द्वारा सैकड़ों की संख्या में निशुल्क आत्मानंद स्कूल प्रारंभ किए गए, जो मध्यम और गरीब परिवार के बालकों के लिए वरदान साबित हो रहे थे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही सबसे पहले आत्मानंद स्कूल का नाम बदला जाने लगा, फिर आत्मानंद स्कूलों को फंड देना बंद किया जाने लगा। अपना चेहरा

चमकाने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 14 मार्च में 332 करोड़ खर्च किए गए, वही आत्मानंद स्कूल में चाक, डस्टर खरीदी के लिए सरकार के पास पैसा न होना बहुत आश्चर्यजनक बात है। आत्मानंद स्कूल प्रारंभ होने के बाद पालक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर आत्मानंद स्कूल में एडमिशन कराने लगे थे।

बिजनेस साइट

वी-वाय हॉस्पिटल ने मनाया महिला दिवस, सभी हेल्थ चेकअप पर 20% छूट

रायपुर। वी-वाय हॉस्पिटल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर हॉस्पिटल ने महिलाओं के लिए सभी हेल्थ चेकअप पर 20% तक की छूट दी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके स्वास्थ्य को लेकर समाज में साकारात्मक सोच उत्पन्न करना था। हॉस्पिटल में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा की और विशेषज्ञों से उचित सलाह प्राप्त की।

मैट्स यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य आयोजन

रायपुर। मैट्स यूनिवर्सिटी रायपुर और अरुण परिवार ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर डॉ. वीणा चंद्रवंशी दीवान की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत पो-वाइस वॉलनर डॉ. दीपिका डांड, डॉ. आशा अमाईकर, डॉ. कल्पना चंद्रकर, डॉ. रेथना अंसारी और परविंदर कोक के साथ हुई, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण दिन की अहमियत और समाज को आकार देने में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

महिला दिवस पर वितीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन

रायपुर। शासकीय नवीन महाविद्यालय, नवा रायपुर, अटलनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरबीआई के सहयोग से वितीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय और विद्यालय की छात्राओं को डिजिटल साक्षरता हाइजनी, फ्रीड से बचाव और बैंक में नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने सरल भाषा में डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा, वितीय योजना और बैंकिंग क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर मार्गदर्शन किया।

ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल ने पूरे किए सफलतम सेवा के एक वर्ष

रायपुर। मरीजों की उत्कृष्ट देखभाल और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ, ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल ने अपनी सफल सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस एक साल के दौरान अस्पताल ने 15 हजार से अधिक मरीजों को संतुष्टिपूर्ण उपचार प्रदान किया और 3,000 से अधिक सफल सर्जरी कीं। ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. जयवर्धन सिंह और डॉ. प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल आधुनिक तकनीकों और अनुभवी चिकित्सा स्टाफ के साथ मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

कोलंबिया फार्मेली संस्थान में एलुमनी मीट का आयोजन

रायपुर। कोलंबिया फार्मेली संस्थान ने हाल ही में 2010 से 2024 तक के पासआउट छात्रों के लिए एक शानदार एलुमनी मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्तरों के पूर्व विद्यार्थियों ने एक साथ आकर अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा किया और अपने अनुभवों को साझा किया। संस्था के अध्यक्ष किशोरी जादवानी ने कहा कि इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पुराने पलों को पुनर्जीवित करना और पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के आयोजन से नए रिश्तों का आरंभ होता है और विद्यार्थी अपने करियर की उपलब्धियों को एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह

रायपुर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने क्षेत्र प्रमुख अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो महिलाओं की शक्ति और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित थे। 1 मार्च को 'वॉकथॉन' का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 3 मार्च को महिला कर्मचारियों एवं ग्राहकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।

विश्वभारती ऑटोमोबाइल्स में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा का अनावरण

रायपुर। मारुति सुजुकी के अधिकृत डीलर, वि.श्व.आ.र.ती. ऑटोमोबाइल्स ने नेक्स शोरूम, विधानसभा रोड में एक मध्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मारुति सुजुकी की बहुप्रतीक्षित पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर बतौर प्रमुख अतिथि दिवाकर पी. सिंह ने शिरकत की, साथ ही मारुति के एरिया मैनेजर अंकुश शर्मा, संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर यशवंत अग्रवाल, सीईओ दिशा अग्रवाल और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस खास मौके पर ई-विटारा के आधुनिक फीचर्स और आकर्षक डिजाइन का प्रदर्शन किया गया।

श्री रावतपुरा सरकार युनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

रायपुर। श्री रावतपुरा सरकार युनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. रुशिरा गाय पाण्डेय उपस्थित रहें। इस कार्यक्रम में प्रो. मनीष कुमार पाण्डेय ने भारतीय इतिहास में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया। युनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉ. सोरभ शर्मा ने महिलाओं में आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास के महत्व पर चर्चा की।

केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में मनाया गया महिला दिवस

रायपुर। केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में शनिवार को महिला दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर बैंक में कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया और उन्हें पुष्पचूल्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम में केनरा बैंक अधिकारी संघ की तनुश्री कुंवर और पूजा अग्रवाल भी उपस्थित रहें।

उर्मिला फाउंडेशन ने की गायत्री शक्ति अवाड़ की घोषणा

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संघा पर उर्मिला फाउंडेशन और महाराष्ट्र मंडल द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर महापौर मंगल चौबे ने महिलाओं को सम्मानित किया।

अजब कार्रवाई, खर्च का ब्योरा नहीं देने पर आयोग ने प्रत्याशी पर लगाया तीन साल का प्रतिबंध पर अब कोई चुनाव ही नहीं

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

लोकसभा चुनाव में खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों पर भारत निर्वाचन आयोग ने अजब से कार्रवाई की है। आयोग ने ऐसे प्रत्याशी पर आगामी 3 साल तक संसद के किसी भी सदन, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा हो या फिर परिषद सदस्य के पद का चुनाव हो, वह इनमें से कोई भी चुनाव लड़ नहीं पाएगा। आयोग ने यह आदेश निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई



3 साल तक चुनाव पर प्रतिबंध का नियम

इधर भारत निर्वाचन आयोग की इस कार्रवाई पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि आयोग ने जो कार्रवाई व आदेश जारी किया है वह गाइड लाइन के अनुसार है। गाइड लाइन में चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने पर प्रत्याशी पर 3 साल तक चुनाव पर प्रतिबंध लगाने का नियम है। इस नियम के तहत ही आदेश जारी हुआ है।

6 प्रत्याशियों ने नहीं दिया खर्च का ब्योरा, 4 पर लगा 3 साल का प्रतिबंध

लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को अपने-अपने चुनाव प्रचार के दौरान खर्च की गई राशि का कुल ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। यह ब्योरा तीन

इन प्रत्याशियों पर आयोग ने लगाया प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत रायपुर जिले में लोकसभा का चुनाव लड़कर खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी ममता रानी साहू, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पीतांबर जांगई, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रत्याशी हीरानंद नागवानी के अलावा निदेशीय प्रत्याशी इमरान खान, नुरी खां एवं राजेश धुव शामिल हैं। इनमें से बसपा और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य चारों प्रत्याशियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के तहत 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिले के सभी 6 प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से कारण बताओ नोटिस जारी कराया। इस नोटिस का जवाब 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना था, लेकिन किसी प्रत्याशी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने 6 में से 4 प्रत्याशियों पर कार्रवाई करते हुए आगामी 3 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

आशीर्वाद मवन में राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन आज

रायपुर। बैरन बाजार स्थित आशीर्वाद भवन में 9 मार्च को राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें देशभर के ज्योतिष, वास्तु और अंकशास्त्र के लगभग 50 से अधिक विद्वान शामिल होने वाले हैं। यह कार्यक्रम कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज, महाकाल धाम अम्लेश्वर, अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति

होली हैं होली!

आई मस्ती की रंगों की, इस मस्ती में पियो हल्दीराम की ठंडाई

आएगी मस्ती की एनर्जी, पीजिए बादाम केसर युक्त हल्दीराम की ठंडाई

अब मस्ती और मस्ती के रंगों में ही ठंडाई उपलब्ध

संपर्क करें- 7837411411

सभी दुकानों पर उपलब्ध

www.haldiram.com

Online Booking - www.tripuryatra.com

स्त्रीपर मात्र 15,500/-

रमेश ट्रेन से - 14 जुलाई से 24 जुलाई 2025 (11 दिन)

रिवर्सन कोच (11 दिन)

07 मई से 17 मई 2025, 04 जून से 14 जून 2025 (11 दिन)

7 ज्योतिर्लिंग यात्रा

श्री द्वारिकाधीश, श्री शंकर जी, श्री विठ्ठल जी, श्री महाकालेश्वर, श्री अंकलेश्वर, श्री सोमनाथ, श्री नागेश्वर, श्री सुभद्रेश्वर, श्री प्रबलेश्वर, श्री भोगेश्वर, श्री राम सिंघनापुर

11 यात्रियों की बुकिंग पर एक यात्री नि:शुल्क

राशि- स्त्रीपर- 15500/-, 3 एसी- 27,500/-, 2 एसी- 30,500/- (+5%GST)

श्री त्रिपुर तीर्थ यात्रा सेवा समिति

संपर्क करें:- 7354-411411

स्त्रीपर- 18,501/-, 3AC- 28,501/-

7 ज्योतिर्लिंग यात्रा

श्री द्वारिकाधीश, श्री शंकर जी, श्री विठ्ठल जी, श्री महाकालेश्वर, श्री अंकलेश्वर, श्री सोमनाथ, श्री नागेश्वर, श्री सुभद्रेश्वर, श्री प्रबलेश्वर, श्री भोगेश्वर, श्री राम सिंघनापुर

यात्रा दिनांक: 23 मई 2025, 09 जून 2025, 08 मई 2025, 04 जून 2025, 11 दिन की यात्रा

स्वामी तीर्थ यात्रा

राशि- स्त्रीपर- 18,501/-, 3AC- 28,501/-

संपर्क करें- 91111-11866, 82757-57579

प्रशिक्षित ड्राइवर मंगली/डेली बेसिस पर उपलब्ध है

नोट - हमारे द्वारा प्रशिक्षित ड्राइवर ये सारे पॉइंट फॉलो करते हैं।

1. गाड़ी चलते समय पान मसाला / सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं।
2. एक बार में प्रोन उठाते हैं, कॉल मिस होने पर कॉल बैक करते हैं।
3. प्रतिदिन गाड़ी की साफ सफाई करते हैं।
4. गाड़ी हमेशा सुरक्षित स्पीड में चलते हैं।
5. ड्यूटी के दौरान यूनीफॉर्म में रहते हैं।

संपर्क करें- 7837411411

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

Rahul Travels One Way Taxi Pvt Ltd

Beside Raipur Airport

हरिभामि लाइव



शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का 12वां मैच इंडिया और वेस्टइंडीज मास्टर्स के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में हजारों दर्शकों की मौजूदगी ने स्टेडियम का माहौल और भी शानदार बना दिया। जैसे ही क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में पहुंचे, दर्शकों की तालियों और 'सचिन.. सचिन..' की गूंज से स्टेडियम गूंज उठा।

दिग्गजों ने बरसाए चौके-छक्के जश्न में डूबे रायपुरियंस

अंतिम ओवर में इंडिया को मिली रोमांचक जीत

रायपुर। कई दर्शक सचिन को तस्वीरों और उनके समर्थन में संदेश लिखी तख्तियां लेकर आए थे। मैच में क्रिकेट जगत के दो महान खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को खेलते हुए देखना बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी के लिए एक



सपना था। उनकी खेल भावना और कड़ी मेहनत ने स्टेडियम में मौजूद हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम 7.30 से रात 12 बजे तक दिग्गजों ने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भर दिया। मैच के दौरान हर चौके और छक्के पर दर्शकों ने जमकर जश्न मनाया, वहीं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को चीयर करते हुए नजर आए।

नहीं देखने मिली सचिन की बल्लेबाजी

मैच में पहली बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 26 चौके और 13 छक्के लगाए। हालांकि मैच में सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली, जिससे कई दर्शक मायूस हो गए, लेकिन युवराज सिंह और यूसुफ पठान की जोड़ी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच का रोमांच बढ़ा दिया। शुभम तिवारी ने 60 और अंबायती रायडू ने 63 रनों की शानदार पारी खेली, दोनों ने तेज गति से अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अपनी क्रिकेटिंग कला से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और मैच को रोमांचक बना दिया। भारत की पहली बल्लेबाजी में दर्शकों ने खुद को पूरी तरह से मैच में शामिल किया और हर एक रन पर अपना उत्साह व्यक्त किया।



सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को देख उत्साहित हुए दर्शक



युवराज सिंह

सिटी लाइव

सुरों में पिरोकर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय की रचना, ठुमरी और गजल ने मोहा मन



रायपुर। कमलादेवी संगीत महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की प्रथम उपशास्त्रीय गायिका विदुषी डॉ. अनीता सेन की स्मृति में समर्पित किया गया, जिनका योगदान भारतीय संगीत जगत में अविस्मरणीय रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने उनकी शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय रचनाओं को अपने सुरों में पिरोकर प्रस्तुत किया। डॉ. अनीता सेन ने अपने जीवन में उपशास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। वे न केवल एक उच्चकोटि की कलाकार थीं, बल्कि एक समर्पित शिक्षिका भी थीं, जिन्होंने भा र ती य संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ठुमरी, दादरा, गजल और अन्य उपशास्त्रीय विधाओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई बंदिशों और रचनाएं आज भी संगीत प्रेमियों के बीच जीवन्त हैं।

तुम्हीं से नहीं बोलूंगी..

कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसे बीपीए आठवें सेमेस्टर की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। यह प्रस्तुति राग यमन पर आधारित थी, जिसमें हारमोनियम पर कु. छाया मौसमी संगत कर रही थीं। इसके बाद दस थोटों की सरगम प्रस्तुत की गई, जो तीनताल में बंधी थी। इस प्रस्तुति में तबले पर कु. पायल भट्ट और हारमोनियम पर वर्षा चतुर्वेदी ने संगत की। कार्यक्रम में कु. श्रुति विश्वास (बीपीए द्वितीय वर्ष) ने राग बागेश्री में मध्यलय की रचना कौन ठगवा नगरिया लुटल हो.. प्रस्तुत की, जिसमें हारमोनियम संगत भगवती घेंडे ने दी। इसके बाद कु. प्रीति साहू ने राग भीमपलासी में तीनताल मध्यलय की बंदिश जावो जावो पिया, तुम्हीं से नहीं बोलूंगी.. का सुमधुर गायन किया। कार्यक्रम का संचालन कु. वर्षा चतुर्वेदी ने किया। पूरे कार्यक्रम में छात्राओं ने तबला, हारमोनियम, सितार और अन्य वाद्ययंत्रों की संगति से प्रस्तुतियों को और भी आकर्षक बनाया गया।

कार्नर न्यूज



एचएनएलयू ने किया 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन

रायपुर। जब मैं 12वीं की छात्रा थी, उन दिनों स्कूल जाते समय रास्ते में स्लम बस्ती में महिला से मारपीट होते देख भारी मन से आगे बढ़ी थी। उसी दिन निर्णय लिया कि भविष्य में इस तरह की घटना महिलाओं के साथ नहीं होने दूंगी। इसके लिए उन्हे अधिकारों का बोध कराने के संकल्प के साथ ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने का मन बनाया। पढ़ाई करने के बाद आज डिग्री के साथ मेडल पाने वाली छात्राएं कुछ इसी तरह के संकल्प से समाज में महिलाओं को उनके हक का एहसास कराने के लिए उत्साह से लबरेज नजर आईं। अवसर था हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के आठवें दीक्षांत समारोह का। इसके चलते तेलीबांधा स्थित होटल वेबीलॉन कैम्पस में सुबह से उत्साह का माहौल था।

महिला से मारपीट होते देख लिया लॉ करने का निर्णय, अब अत्याचार से बचाने का संकल्प



सुबह पूर्वाभ्यास, दोपहर को दीक्षांत



रायपुर। जब मैं 12वीं की छात्रा थी, उन दिनों स्कूल जाते समय रास्ते में स्लम बस्ती में महिला से मारपीट होते देख भारी मन से आगे बढ़ी थी। उसी दिन निर्णय लिया कि भविष्य में इस तरह की घटना महिलाओं के साथ नहीं होने दूंगी। इसके लिए उन्हे अधिकारों का बोध कराने के संकल्प के साथ ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने का मन बनाया। पढ़ाई करने के बाद आज डिग्री के साथ मेडल पाने वाली छात्राएं कुछ इसी तरह के संकल्प से समाज में महिलाओं को उनके हक का एहसास कराने के लिए उत्साह से लबरेज नजर आईं। अवसर था हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के आठवें दीक्षांत समारोह का। इसके चलते तेलीबांधा स्थित होटल वेबीलॉन कैम्पस में सुबह से उत्साह का माहौल था।

अनुपस्थित रूप में प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त एक शोधार्थी को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने दीक्षांत भाषण दिया। उन्होंने विधि शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए नव-उत्पीठ विधि स्नातकों से सविधान के मूल्यों को बनाए रखने की अपील की।

उपाधि-डिग्री के लिए लगी कतार : इसमें कुल 161 छात्रों को बीए-एलएलबी ऑनर्स की उपाधि दी गई। इसमें 125 छात्रों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज कर डिग्री प्राप्त की, जबकि 36 छात्रों को यह उपाधि अनुपस्थित रूप से दी गई। इसके अलावा एलएलएम से कुल 90 छात्र स्नातक हुए। इनमें से 57 छात्रों ने व्यक्तिगत रूप से उपाधि प्राप्त की, जबकि 30 छात्रों को यह उपाधि

इसमें विशिष्ट अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, डिप्टी सीएम अरुण सावत के साथ ही न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छात्रों को उपाधियां प्रदान कीं। दीक्षांत से पहले सुबह 9 बजे से ही सभी छात्र-छात्राओं को दीक्षांत का पूर्वाभ्यास कराया गया। इसके बाद दोपहर तीन बजे से मुख्य आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ। पारंपरिक रूप से आयोजन का शुभारंभ होने के बाद हाल में सक्नाटे का माहौल रहा। अतिथियों के उद्बोधन के बाद उपाधि बांटने की श्रृंखला सजाई गई।

उपाधि बांटने के लिए दीक्षांत में सजाई श्रृंखला



न्याय दिलाने के लिए करूंगी प्रयास

श्रीरधा राय चौधुरी को अलग-अलग क्षेत्र में 7 मेडल मिले। उनकी इस उपलब्धि का साक्ष्य बनने के लिए उनके गाजियरस भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बताया कि मैं लॉ की पढ़ाई करने का फैसला स्कूली शिक्षा के दौरान ही ले चुकी थी। इसे साकार करने के लिए लॉ की पढ़ाई में भी सफलता मिली और उपाधि के रूप में प्राप्त किया। महिला होने के नाते नारी शक्ति को कायम का बोध कराने का प्रयास जरूर करूंगी।

पिता से मिली लॉ करने की प्रेरणा

शहर की अदिति सिंह को बीए एलएलबी ऑनर्स की डिग्री मिली। उन्होंने बताया कि पिता अजातशत्रु बहादुर सिंह एस्पॉर्त होने के साथ ही एलएलबी पासआउट हैं। मेरे दादाजी ने भी लॉ करके लोगों को अधिकारों का बोध कराया। मैं महिलाओं को कानूनी ज्ञान देने के लिए प्रयास करूंगी, ताकि वे अपने अधिकारों को समझे और शोषण का शिकार होने से बच सकें। इससे वे कानूनी ज्ञान से मजबूत होंगी।

कानूनी रूप से दक्ष बनाने पहल

शाकली शर्मा को बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए दो गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा के दौरान महिला से मारपीट होते देखकर मैंने लॉ करने का निर्णय किया था। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आत्म निर्भर बनने के साथ ही कानूनी रूप से भी दक्ष बनें। इसके लिए उनके बीच आगे काम करने का संकल्प मैंने मेडल लेते हुए लिया है। इसे मैं हर हाल में समाज का हिस्सा बनाऊंगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हर क्षेत्र व संस्था जुड़े लोगों ने मिलकर दिया उत्सव का रूप

नारी के त्याग, समर्पण और संघर्ष का सम्मान

रंग इंडिया ने किया सौ महिलाओं का सम्मान



शहर के तेलीबाधा स्थित एरिना बुटिक में शाम 4 से 6 बजे के बीच सौ महिलाओं का मान बढ़ाने व प्रतिक्रिया देने के लिए रंग इंडिया के वीरव अग्रवाल, पंकज सोमानी, आदित्य मुंडड़ा की अगुवाई में गरिमाय आयोजन किया गया। इसमें गेस्ट के रूप में महापौर मीनल चौबे, ईशा झावर, मधुलि का रमटेक ने अपने संघर्ष और सफलता से जुड़ी यादें साझा कीं। इसके बाद सभी महिलाओं को आत्म निर्भरता के साथ समाज के विकास में भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया।

महिलाओं के साथ पुरुष भी बने हिस्सा



वैदेही मुस्कान सोशल वेलफेयर सोसायटी ने वीआईपी रोड स्थित एक होटल में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें सफल महिलाओं के साथ ही उन्हें सफल बनाने में योगदान देने वाले पुरुषों का भी सम्मान किया गया। इसमें अतिथि एडवोकेट जया गुप्ता, उषा शर्मा, चरनजीत सिंग, दिलराज सिन्हा, तुषार कुमार, सावित्री जगत, कविता कुममज भी सम्मानित की गईं। वहीं डॉ. आरती साठे, अजोती कुजुर, डॉ. दुर्गा गेंदलेपरी भोसले, नीता थापा, आकाश मनहरे, मोहन शर्मा, राजकुमार पटेल एवं अन्य को पुरस्कृत किया गया। संस्था द्वारा किया गया 11वां आयोजन यादगार रहा। आयोजक पायल नागरानी ने एंकरिंग करते हुए इसे सफल बनाया। इसमें किर्ती अठवाल, श्रीति हल्लर, श्रुति जैन, सबुनी श्रीवास्तव भी शामिल हुईं।

केटीयू में 'शक्ति का गुलाल' आयोजित



कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में 'रंग 2.0' शक्ति का गुलाल का आयोजन किया गया। इसमें नारी शक्ति पर केंद्रित काव्य पाठ एवं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला चला। विभागाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र मोहन, ने नारी शक्ति पर अपने विचार पेश किए। विद्यार्थियों ने तिलक लगाकर, सूखी होनी खेलकर पानी के संरक्षण का संदेश दिया। संचालन छात्रा मुस्कान भारती और ख्याति मिश्रा ने किया। इस अवसर पर डॉ. नीलेश साहू, गुलशन वर्मा, अमिषेक गोस्वामी, स्नेहा पांडेय, शोभाश्री गांगुली सिंह, विनोद सावंत एवं चंद्रेश चौधरी समेत विद्यार्थी उपस्थित रहे।

दिशा कॉलेज में व्याख्यान का आयोजन



दिशा कॉलेज कोटा में इस साल 'करवाई में तेजी' थीम पर आयोजन किया गया। सुने डेवलपमेंट सेल ने अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया। प्राचार्य डॉ. एके तिवारी, डॉ. सौम्या तिवारी विभाग अध्यक्ष की मौजूदगी में मुख्य वक्ता डॉ. बी सोना कुमार एसोसिएट प्रोफेसर ने अपना वक्तव्य दिया। मंच संचालन दिशा शर्मा ने किया। अर्चना पटेल ने सारगर्भित उद्घोषण के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

सर्व ब्राह्मण समाज ने किया आयोजन



सर्व ब्राह्मण समाज ने विशेष सक्रिय समाज सेवी महिलाओं को दुर्गा शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। महादेव घाट स्थित शिव शंकर समाज में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा के मुख्य आतिथ्य व महिला अध्यक्ष रत्ना शर्मा, शिक्षा शर्मा की विशेष उपस्थिति में 11 समाजसेवी महिलाओं को शाल और, श्रीफल तथा प्रशस्ति पत्र में करके सम्मानित किया। इनमें वीणा तिवारी, सुधा शर्मा, शारदा मिश्रा, सुनंदा दुबे, कविता शर्मा, रश्मि शर्मा, वैजयंती चतुर्वेदी शामिल थीं।

रायपुर। आधी आबादी के त्याग, समर्पण और संघर्ष को सम्मान देने के लिए सरकारी विभागों से लेकर होटलों, क्लबों, पॉश कॉलोनीयों में भी मंच सजाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उत्सव का रूप देने में भी आयोजकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अलग-अलग क्षेत्र में काम करने के साथ उनके विशिष्ट कार्यों को भी लोगों ने सराहा। कुछ श्रृंखलाएं ऐसी भी सर्जी, जिसमें महिलाओं को ऊंचा मुकाम दिलाने में सहभागी बने पुरुषों का सम्मान किया गया। शहर के हर क्षेत्र में अवसर को खास बनाने के लिए संस्थाओं ने भी तन-मन धन से जतन किया। इसके लिए सरकार ने भी साइंस कॉलेज मैदान में भव्य आयोजन किया।

सेवाभावी 108 नारी शक्ति का बढ़ाया मान



12वें वर्ष भी सिविल लाइंस स्थित वृंदावन हॉल में 108 महिलाओं और अलग-अलग 51 एनजीओ के माध्यम से सेवा के लिए सुवर्ण सम्मान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ महिला सद्भावना सम्मान समारोह एवं लाहोटी मित्र मंडल ने यह आयोजन किया। मुख्य संरक्षक छवि लाल सोनी, लक्ष्मीनारायण लाहोटी और आयोजक डॉ. मनोज लाहोटी की अगुवाई में यह सफल आयोजन किया गया। इसमें अन्नपूर्णा शर्मा, रिया तिवारी, सीमा कटंकार, शुभांगी आटे के साथ मित्र मंडल के सभी मंचर्स मुख्य सहयोगी रहे। विशिष्ट अतिथि सविता जग्गी, रविंद्र सिंह, नंदकुमार वर्मा मंचस्थ रहे। इनके द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया गया।

जीवन की लय को सहेजने का सुंदर प्रयास



सोल ऑफ द सॉल छत्तीसगढ़ में जीवन की लय को सहेजने का सुंदर प्रयास है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह बातें छत्तीसगढ़ क्लब में कही। जहां प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के स्मृतियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक सोल ऑफ द सॉल लाइफ्स रिस्क इन छत्तीसगढ़ का विमोचन करते हुए कहा कि यह बुक आईएसएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की संयुक्त परिकल्पना है। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. इंदिरा मिश्रा अपने प्रशासनिक अनुभव और अपने आईएसएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन के अध्यक्ष काल के अनुभवों को साझा किया। इसमें अध्यक्ष रितु अनिताम जैन, जाह्नवी पाण्डेय ने भी कविता का पाठ किया। इसमें ज्योति गौतम, ज्योति साहू, डॉ. वंदना अग्रवाल मौजूद रही।

फूलों की होली संग मनाया महिला दिवस



होली का रंग जरूरी नहीं की रंग और कलर से ही हो बल्कि होली का रंग तो प्यार से होना चाहिए। गायत्री शक्तिपीठ समता कॉलोनी रायपुर में इस थीम पर ही महिला दिवस का आयोजन किया गया। महिलाओं ने यहां फूलों की होली खेली। सम्मेलन में जोन समन्वयक आदर्श वर्मा बहने ने कहा कि नारी जन्म देने वाली जननी और नारी शक्ति स्वरूपा है। आरके शुक्ला ने बताया कि इस आयोजन में माताओं और बहनों के साथ माताजी के जन्म शताब्दी वर्ष 2026 और अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर चर्चा की गई। इसमें प्रमुख रूप से पद्मार्णव वर्मा, सरला कोसरेया विशेष रूप से मौजूद रही।

दिव्यांग महिलाओं को कराया शैक्षणिक भ्रमण



गृहणी संस्था ने होटल हयात में दिव्यांग महिलाओं को शैक्षणिक भ्रमण कराया। दिव्यांग महिलाओं ने भी होटल की गतिविधियों को देखा और समझा। यहां के कर्मचारियों से विचार साझा किए। जहां होटल के अधिकारियों ने दिव्यांग महिलाओं के जजबे की सराहना की और आजीविका स्रोतों के बारे में भी बताया। सम्मान समारोह में पलारी मनी कंचन केंद्र की महिलाएं, बलौदा बाजार की उषा साहू और तोमेश वर्मा, होटल के पदाधिकारी कपिल मलहोत्रा, जनरल मैनेजर अरुणवा सरकार, एच.आर. महेश सिंह शामिल हुए।

समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महतारी वृंदावन सम्मेलन में प्रदेश की सभी महिलाओं को शुभकामना देने पहुंचे। कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं बल्कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में उत्पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं के लिए डिजिटल सुविधा की शुरुआत किया। इसके तहत वे ऑनलाइन एवं मोबाइल एप से शिकायत कर सकेंगी। बाल विवाह मुक्त प्रदेश अभियान के तहत

जोन में स्वच्छता दीर्घियों का बढ़ाया मान



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 11 के पार्श्व मोहन साहू द्वारा जोन क्रमांक 09 में स्वच्छता दीर्घियों का श्री फल, गमछा और साड़ी देकर सम्मानित किया गया। इसमें जोन के अधिकारी भी शामिल हुए।

जोन प्रमारी ने किया गरिमाय आयोजन



नवापारा नगर के सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय के शिक्षा विभाग में महिला दिवस आयोजित किया गया। संकुल समन्वयक व जोन प्रमारी अमनपुर ने इसे सफल बनाने पहल की। इसमें मुख्य अतिथि सौताराम यादव के साथ प्राचार्य डॉ. शोभा गावरी मंचस्थ रही। प्रशिक्षणार्थी समीर देवान, वैष्णवी साहू, सोनिक दिवाकर ने भी सभी को संबोधित किया। डोमेस्वर साहू, सौताराम यादव ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया।

जेएईएस में धूमधाम से मनाया महिला दिवस



डायल 108 का संचालन करने वाली संस्था जेएईएस में महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसमें संस्थान की महिला कर्मियों को तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। संस्था की सीएचआरओ आकांक्षा शर्मा ने कहा कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। घर की जवाबदारी के साथ ऑफिस के कामकाज में भी जिम्मेदारी निभा रही हैं। अवसर को खास बनाने के लिए उनके बीच विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी हुईं। महिला कर्मियों की रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया।

घर का खर्च चलाने वाली महिलाओं का हुआ सम्मान



महिला दिवस पर श्री शिवाय महिला स्व सहायता समूह मोवा में कुछ ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया। जो अपने घरों का खर्च चलाती हैं। ऐसी नारी शक्ति को शत-शत नमन। ऐसी सम्मानित महिलाओं का श्रीफल और मिठाई मेंट करके हुए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शुभा नामदेव सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं।

महिला सफाई कर्मियों का सम्मान



जय बुद्धी मां गांडा महासभा ने राजीव गांधी वार्ड में महिला सफाई कर्मियों को साड़ी और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इसमें महासभा की महिला जिलाध्यक्ष रौशन बाघ ने कहा कि महिला सफाई कर्मी हम सबके स्वास्थ्य और शहर को स्वच्छ बनाने का दायित्व निभा रही हैं। कभी किसी को कुछ नहीं मंगती, पर हमें खुद आगे आते हुए सम्मान देना चाहिए। इसमें प्रदेशाध्यक्ष शंकर तांडी, सचिव सागर तांडी के साथ जिलाध्यक्ष राधे नायक, मीडिया प्रमारी श्याम सिक्का, जीतू सागर, संस्कृति प्रमारी संतोष चंद्र ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यादव समाज रत्न



छत्तीसगढ़ यादव समाज रत्न व पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत फूलबासन यादव का सम्मान अहीर समाज रायपुर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महादेव घाट में किया। मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि सर्व समाज महिलाओं को किसी भी अव्यय का सामूहिक रूप संगठित विरोध करना चाहिए। अध्यक्ष करुणा यादव, उपध्यक्ष सरोज यादव, सचिव निशा यादव, कोषाध्यक्ष रितु यादव ने भी सम्मान समारोह में अपनी बात रखी। इस आयोजन में 300 महिलाएं शामिल हुईं। इसके चलते उत्सव का माहौल बना।

महिला अधिवक्ताओं ने दिया संदेश



लोक अदालत परिसर में महिला अधिवक्ताओं ने उत्साह से इस खास दिन को सेलिब्रेट किया। महिला अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर संदेश दिया कि महिला कोमल है, कमजोर नहीं। शोभा सोनी, अधिवक्ता संघ रायपुर महिला सह सचिव गायत्री साहू, अधिवक्ता भगवान् नायक ने समा को संबोधित किया। कहा कि महिलाएं समाज को न्याय दिला रही हैं। कविता जायसवाल नेहा राठौर, हेमलता अली, सरिता विश्वकर्मा मौजूद रही।

अशोक और पुष्प वाटिका के मूल में श्रीराम की भक्ति, सौंदर्य-श्रृंगार का आधार हैं भगवान

रायपुर। मानस में दो वाटिका का जिक्र गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। इसमें पहली अशोक वाटिका और दूसरे क्रम में पुष्प वाटिका का उल्लेख है। इन दोनों के मूल में श्रीराम भक्ति निहित है। तुलसी ने स्पष्ट है कि व्यक्ति के स्वरूप को ही अमृत्य प्राप्त है। कथा अमृत से जो ज्ञान मिलेगा, आत्मबोध होगा। वास्तव में वह स्वरूप ही अमृत है, इसलिए बाहर के अमृत की जरूरत नहीं है।



अमृत स्नान के लिए अधिकाधिक लोग प्रयागराज कुंभ गए, लेकिन जो नहीं जा सके हैं, वे निराश न हों। रामकथा में गोता लगाएं, वहीं पुष्प मिलेगा। यह बात शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में जारी श्रीराम कथा ज्ञानयज्ञ में शामिल श्रोताओं के बीच मानस मर्मज्ञ मंदाकिनी दीदी ने शनिवार को कही।

ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं..

पुष्प वाटिका में माता सीता ने केवल प्रभु श्रीराम का दर्शन ही नहीं किया, बल्कि उन्हें पाया भी। यही अंतर देह दर्शन और देह के सौंदर्य में है। लंका जलने का मतलब क्या है? देह में आप जब सौंदर्य खोजेंगे तो यह देह तो आपको कभी भी छोड़कर चली जाएगी। लंका 400 एकड़ में थी, लेकिन हनुमानजी ने उसे जला ही दिया। हमें समझ लेना चाहिए कि सुंदर बने रहने के लिए कितना भी मेहनत कर लें, एक न एक दिन हमें छोड़कर जाना ही है। मानस में बताया गया है कि यह शाश्वत सत्य है। जीवन की कोई समस्या ऐसी नहीं है, जिसका हल न निकाला जा सके। इसलिए गोस्वामीजी ने मानस के हर प्रश्न को बारीकी से समझाने के लिए निवोड सौपा है।

Education Time

MODEL ENGLISH HR. SEC. SCHOOL

"EDUCATION MAKES FUTURE BETTER"

Register Now at www.mesraipur.com

Civil lines, Katora Talab Road, Raipur (C.G.)
Contact : 0771-4000123, 93296-21221

ADMISSION OPEN

SPECIAL DISCOUNT ON ADMISSION FEES

NURSERY TO 12TH
(Biology, Maths, Commerce)

Strong Academic Foundation & Personalized Attention
Spoken English & Personality Development
Safe & Reliable Transport with Surveillance
Weekly Activity-Based Learning & Skill Development
Monthly Seminars & Interactive Discussions
Scholarships for Meritorious Students (90% & Above from Other Schools)

ROYAL PUBLIC SCHOOL

Play Group Nursery Pre Primary Class I to XII (Science, Commerce, Bio Arts)

Activity-Based Learning for Pre-Primary
Creative Classrooms & Play-Based Education
Sports, Arts & Music for Holistic Growth
Safe & Nurturing Environment
Interactive Events & Competitions
Safe & Reliable Transport with Surveillance

Register Now at www.rpraipur.com

Mathpurna, Chourasiya Colony, Raipur (C.G.) Mo : 95890-85558, 93296-21221, Email : rpraipur123@gmail.com

ADMISSION OPEN

NURSERY TO 12TH

SPECIAL DISCOUNT ON ADMISSION FEES

Contact to Add Your School - 79871-19756

सिटी स्पोर्ट्स

खुद से इलाज के लिए आने में कतराते हैं लोग, तेजी से बढ़े हैं ऐसे मामले

छत्तीसगढ़ महिला हैंडबाल टीम का गठन करने चयन आज मिलाई में



भिलाई। उत्तर प्रदेश हैंडबाल संघ द्वारा 47वीं जूनियर बालिका (19 वर्ष से कम) राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ (उ.प्र.) में दिनांक 26 मार्च से 30 मार्च तक तथा 53वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप का आयोजन हाथरस (उ.प्र.) में 31 मार्च से 05 अप्रैल तक हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। उक्त दोनों ही राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य की जूनियर बालिका एवं सीनियर महिला वर्ग की टीमों का भाग लेना प्रस्तावित है।

उपरोक्त संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य की जूनियर बालिका एवं सीनियर महिला हैंडबाल टीमों के गठन हेतु चयन स्पर्धा का आयोजन 09 मार्च रविवार को शाम 4 बजे से हैंडबाल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-4, भिलाई में आयोजित किया जा रहा है। उक्त चयन स्पर्धा में भाग लेने हेतु जूनियर बालिका हैंडबाल खिलाड़ियों की आयु एक जनवरी 2005 या उसके बाद की होनी चाहिये। चयन स्पर्धा में भाग लेने वाले जूनियर बालिका खिलाड़ियों को अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी तथा सीनियर महिला खिलाड़ियों को अपने साथ आधार कार्ड की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है साथ ही जूनियर बालिका खिलाड़ियों को अपने-अपने स्कूल के प्राचार्य से एलिजीबिलिटी फॉर्म को सील एवं हस्ताक्षर कराकर लाना अनिवार्य है। चयन स्पर्धा में भाग लेने वाले जूनियर बालिका एवं सीनियर महिला हैंडबाल खिलाड़ी अपना पंजीयन हेतु 09 मार्च को दोपहर 3:30 बजे तक हैंडबाल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-4, भिलाई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। छत्तीसगढ़ जूनियर बालिका एवं सीनियर महिला हैंडबाल टीमों के गठन हेतु चयन स्पर्धा की जानकारी छत्तीसगढ़ हैंडबाल संघ से मान्यता प्राप्त समस्त जिला/नगर निगम/इकाई हैंडबाल संघ को ई-मेल एवं वाट्सएप के माध्यम से दे दी गई है।

ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग में भाग ले रहे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी



भिलाई। शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी एनांकुलम केरला में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 9 मार्च तक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में हेमचंद्र यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग से कोच एवं मैनेजर के रूप में बेमतरा सहकारिता विभाग में सीनियर इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ महेंद्र कुमार टेकाम, 60 किलोग्राम वर्ग में आशीष लांजी, विक्रम कुमार, 65 किलोग्राम वर्ग में मनोज सिंह, 70 किलोग्राम वर्ग में आदर्श महापात्र, 75 किलोग्राम वर्ग में शैलेश कुमार मौर्य एवं 85 किलोग्राम वर्ग में आकाश कुमार सिंह सहित 6 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन मुंबई के सहयोग से की जा रही है। तथा इस प्रतियोगिता में सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग संगठन एवं इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन के सेलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने दी है।

ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नौकायान के लिए रविशंकर विवि की टीम रवाना



रायपुर। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट नौकायान (महिला एवं पुरुष) का आयोजन 11 से 17 मार्च को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (पंजाब) की ओर से किया जा रहा है। जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कि टीम शनिवार को चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। विश्वविद्यालय की कुल 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें 4 महिला व 5 पुरुष खिलाड़ी हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय नौकायान के खिलाड़ी जागेश्वर साहू, खेमराज साहू, नवीन भारती, खेलावन तारक, हिमांशु कुमार, शालू प्रधान, नीतू सोनवाने, तनु साहू, भूमिका साहू का चयन हुआ है। टीम के मैनेजर पालन कुमार दीवान एवं कोच महेंद्र साहू हैं। प्रोफेसर रीता वेणुगोपाल डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं प्रोफेसर राजीव चौधरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गयी एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

मानसिक विकार को 'पागलपन' मानना सबसे बड़ी भूल, झिझक छोड़ करें उपचार की पहल

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मामले पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ते हुए देखे गए हैं, विशेषतौर पर कोरोना महामारी के बाद से इसकी दर में और भी बढ़ोतरी आई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, यह बड़े खतरे के रूप में उभरती समस्या है, जिसके बारे में सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का जोखिम भी बढ़ जाता है। दुर्भाग्यवश भारत में अब भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों में कलंक की भाव के कारण ज्यादातर लोगों में इसका समय रहते निदान नहीं हो पाता है। देश में बढ़ते मानसिक रोगों के खतरे को लेकर हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) जयपुर के अध्ययनकर्ताओं ने एक ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें कहा गया है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए स्व-रिपोर्टिंग दर काफी कम है। इसका मतलब है कि लोगों को इसके लक्षणों को पहचानने और खुद से निदान-इलाज के लिए जाने की दर कम है, जोकि निश्चित ही चिंताजनक है।



मानसिक बीमारियों की सेल्फ-रिपोर्टिंग की दर कम

नेशनल सैपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मानसिक बीमारियों की सेल्फ-रिपोर्टिंग की दर एक प्रतिशत से भी कम है। 555,115 प्रतिभागियों (325,232 ग्रामीण और 229,232 शहरी) पर किए गए शोध में पता चला कि भारत में अमीर आबादी की तुलना में कमजोर वर्ग के लोग मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए खुद से नहीं जाते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया, भारत में मानसिक विकारों की सेल्फ-रिपोर्टिंग में कमी से पता चलता है कि मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की पहचान करने और उनका निदान-उपचार प्राप्त करने में बड़ा अंतर है।

मंदिर से लौटते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, बिगड़ सकती है आर्थिक स्थिति

लगभग सभी पूजा में एक नियम होता है, लेकिन पूजा करते वक्त कई बार व्यक्ति से जाने-अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जिससे व्यक्ति को समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है। अब ऐसे में पूजा से संबंधित बातों के बारे में जानना बेहद जरूरी है।



जब भी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जल से भरा लोटा अपने साथ जरूर लेकर जाना चाहिए। साथ ही मंदिर में स्थित पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि जल में कुछ दाने चावल के भी होने चाहिए और चावल (चावल के उपाय) कभी खंडित नहीं होने चाहिए। इससे अशुभ परिणाम मिल सकता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें।

तरक्की रुक सकती है। इसलिए जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल लोटे में अवश्य बचाकर रखें। यदि सारा जल अर्पित कर दिए हैं, तो मंदिर में मौजूद नल से लोटे में थोड़ा सा जल जरूर भर लें। इसके बाद घर वापस आकर मुख्य द्वार पर दोनों कोनों में जल डालें, फिर पूरे घर में उस जल की छीटें मारें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसे करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। वास्तु के अनुसार जल के लोटे से जुड़े इस नियम का पालन नहीं करता है, उसे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें।

कमी खाली लोटा घर लेकर न जाएं

मंदिर में जल अर्पित करने के बाद गलती से भी घर खाली लोटा लेकर नहीं जाना चाहिए। इससे घर की

खुद से इलाज के लिए सामने न आने के पीछे कई कारण

अध्ययन में पाया गया कि मानसिक विकारों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत आर्थिक स्थिति को खराब कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि मानसिक विकारों के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले केवल 23 प्रतिशत व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज था। लोगों का अस्पतालों में न जाने या खुद से इलाज के लिए सामने न आने का एक कारण मानसिक स्वास्थ्य उपचार पर होने वाला मोटा खर्च भी माना जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया, शोध का निष्कर्ष मानसिक विकारों के बोझ को कम करने के लिए रणनीति तैयार करते समय स्थानीय, सामाजिक-जनसांख्यिकीय संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है।

क्या कहते हैं मनोचिकित्सक?



भोपाल स्थित वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की सेल्फ रिपोर्टिंग में कमी के लिए स्टिग्मा को प्रमुख कारक माना जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है, फिर भी कलंक का भाव बड़ी संख्या में लोगों को मदद प्राप्त करने से रोकती है। डॉक्टर कहते हैं, ज्यादातर लोगों में ट्रीटमेंट गैप (समस्या शुरू होने से लेकर पहली बार डॉक्टर से मिलने तक का समय) दो से तीन साल का देखा जा रहा है। इस दिशा में विशेष सुधार की आवश्यकता है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सीधा असर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर होता है। समय पर रोग की पहचान और इलाज होने से समस्या में सुधार करने में मदद मिल सकती है।



रहना है अधिक फोकस, तो अपनाएं ऐसी ईटिंग हैबिट्स

किसी भी काम को करने के लिए पूरा फोकस होना बेहद जरूरी होता है। हालांकि, अक्सर लोग बार-बार ध्यान भटकने की शिकायत करते हैं। ऐसे में अब आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या आपको अपने काम पर फोकस करने में परेशानी होती है? क्या कोई भी काम करते हुए आपका मन भटकता है? क्या काम करते हुए भी आप अन्य कई चीजों के बारे में सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आप चीजें भूलने लगे हैं? अगर इन सभी सवालों के जवाब हां हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन पावर कमजोर हो रही है।

ऐसे में जरूरी होता है कि अब आप अपने फूड और ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान दें। खाना सिर्फ आपके शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी पोषित करता है। इसलिए, आप जो भी खाते हैं, आपका शरीर व दिमाग उसी तरह काम करता है। ऐसे में जब आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी बनाते हैं तो इससे आपको अधिक फोकस रहने में मदद मिलती है। तो चलिए आज इस लेख में सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ईएसआईसी अस्पताल की डाइटेशियन रिनु पुरी आपको कुछ ऐसी ही ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रही हैं, जो आपको अधिक फोकस रहने में मदद करेंगी-

लें बैलेंस डाइट



अगर आप सच में चाहते हैं कि आप माइंड बेहतर तरीके से काम करे और आप अपने काम में अधिक फोकस हों तो आपको बैलेंस डाइट लेना शुरू कर देना चाहिए। इसमें कई तरह के फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को शामिल किया जाता है। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड से लेकर एंटी-ऑक्सिडेंट, विटामिन और मिनरल्स आदि शामिल होते हैं, जो ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर बनाते हैं।

लें रेग्युलर मीलस

अगर आपको मील स्किप करने की आदत है या फिर आप समय से अपना मील नहीं लेते हैं तो अपनी इस आदत को आज ही बदलें। आप दिन भर में छोटे-छोटे मीलस लें। इससे आपको ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है। ऐसे में आपको एनर्जी क्रेश की शिकायत नहीं होती है और खुद को अधिक फोकस महसूस करते हैं। मील स्किप करने या फिर बहुत देर तक बिना खाए रहने से चिड़चिड़ापन, थकान के साथ-साथ फोकस रहने में भी परेशानी हो सकती है।

रहें हाइड्रेटेड

अगर आप अपने ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने आहार के साथ-साथ हाइड्रेशन का ख्याल भी रखना चाहिए। हालांकि, अधिकतर लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जब आपका शरीर डिहाइड्रेटेड होता है तो इससे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। जिससे आपको अपने काम में ध्यान लगाने में समस्या हो सकती है।

बार-बार फड़कती है आंख, शरीर में हो सकती है इन चीजों की कमी



आंखों के फड़कने को लोग अक्सर शकून और अपशकून से जोड़ते हैं। लेकिन अगर इसे सेहत के लिहाज से समझा जाए तो यह शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी की ओर इशारा करती है। आंख फड़कने को शकून-अपशकून से जोड़ने के बजाय इसे साइंस के आधार पर समझें। एक्सपर्ट के मुताबिक, शरीर में पानी की कमी इसका एक कारण हो सकती है। इसके अलावा आंखों का सूखापन भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी भी इसकी वजह हो सकती है। अगर आपकी आंख अक्सर फड़कती है, तो शरीर में पानी की कमी न होने दें। साथ ही, आंखों को भी ड्राई न रखें। विटामिन-डी (विटामिन-डी की कमी कैसे दूर करें), ब्रेन के मैसेज को मसल्स तक पहुंचाने में नर्व सेल्स की मदद करता है। इसकी कमी होने पर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में शामिल करें। इसके अलावा सूरज की रोशनी में बैठें। मैग्नीशियम नर्व और मसल्स फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है।

रायपुर बाजार

Contact For Advertisement
79871 19756
90981 38778

पैसा चाहिए? हमारे पास आइए

(केवल बिजनेस लोन) एजेंट आमंत्रित

न्यूनतम कागजी कार्यवाही
5 हजार से 5 लाख तक बिजनेस लोन

मोटवानी फायनेंस गली नं. 03, सिंधी कॉलोनी, तेलीवांघा, रायपुर

आज लोन लीजिए 100 किश्टों में पटाइये

93404-44755

मैट्रेस

MATTRESS

ऑफर कुछ दिनों के लिए

5 इंच मोटा	6 इंच मोटा	8 इंच मोटा
11500 MRP	17000 MRP	20500 MRP
3000 लेस	5000 लेस	6500 लेस
8500	12000	14000
4000	पुराना- 5000	पुराना- 6000
4500	गद्दा 7000	गद्दा 8000

दुकान एक कुलर अनेक

कूलर हाउस

आकाश जैन - 98261-64650, रतन जैन - 98271-29211

सिटी कोटवाली, नगर निगम के पास, गांधी चौक, रायपुर

हॉल, वर्कशॉप गोडाऊन, लॉन, मैरिज हॉल, किराया भंडार के लिये

BIG BULL E-RIKCHOW & E-LOADER

ई-लोडर (डबल का फायदा)

- 1 टन से 1.5 टन लोडिंग क्षमता
- शानदार पिकअप, स्पीड, माइलेज
- स्वर्चा कम, कमाई दुगुना

डीलर : शुभ मार्केटिंग, भनपुरी, रायपुर (छ.ग.) मो. 9826695200

अंकित बाउण्ड्रीवॉल

प्लिकार्ट, सिविस बाउण्ड्रीवाल, डी.पी. सी पोल फेसिंग करवाने हेतु संपर्क करें।

V.I.P. रोड रायपुर

98279-59655

अब आपके वेशकीमती प्लॉट को सुरक्षित रखना हुआ आसान

आपके विज्ञापन के लिये जगह उपलब्ध है।

संपर्क करें

मो. 6263818152, 7987119756

फिल्म इवेंट

हॉलीवुड

मार्वल की थंडरबोल्ट्स का बड़ा धमाका, वैश्विक रिलीज से एक दिन पहले भारत में दस्तक देगी

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) के भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बड़ी सौगात आने वाली है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'थंडरबोल्ट्स' वैश्विक रिलीज से एक दिन पहले 1 मई, 2025 को भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली है। यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।

मार्वल इंडिया ने इंस्टाग्राम पर यह खबर शेयर की, जहां उन्होंने लिखा, सुपर नहीं, हीरो नहीं, थंडरबोल्ट्स 2 महीने में धमाल मचाएंगे! सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, 1 मई 2025। अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। यह कदम भारत में पिछले एमसीयू शीर्षकों की अपार लोकप्रियता और सफलता की प्रतिक्रिया के रूप में उठाया गया है।

'थंडरबोल्ट्स' एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होगी। फिल्म में फ्लोरेंस पुच, सेबेस्टियन स्टैन, डेविड हार्बर, वायट रसेल, ओल्गा कुरीलेंको और लुईस पुलमैन सहित कई कलाकारों की टोली है जो प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का ट्रेलर 10 फरवरी को रिलीज किया गया था, जिसमें फिल्म के एक्शन की झलक भी देखने को मिली थी। ट्रेलर में 'थंडरबोल्ट्स' की टीम का परिचय दिया गया था। ट्रेलर में फ्लोरेंस पुच कहती हैं, 'यहां हर किसी ने बुरे काम किए हैं। शैडो ऑपरेशन, सरकारी प्रयोगशालाओं को लूटना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स... कोई चाहता है कि हम चले जाएं।'।

जेक श्रेयर द्वारा निर्देशित 'थंडरबोल्ट्स' का कार्यकारी निर्माण लुइस डी'एस्पोजिटो, ब्रायन चैपेक, जेसन तामेज और कोर्ड और नहीं, बल्कि पूर्व एमसीयू स्टार स्कारलेट जोहानसन

टॉलीवुड

तिका के ग्लैमरस गाने के साथ

शुरू होगा 'रॉबिनहुड' का प्रमोशन

फिल्म 'रॉबिनहुड' की रिलीज से पहले इस फिल्म से जुड़ी जा न का री

ल गा ता र सामने आ रही है। इस फिल्म में साउथ अ भि ने ता नितिन और पुष्पा फेम

श्रीलीला नजर आएंगी। वहीं आज फिल्म के एक गाने का पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें अभिनेत्री केतिका शर्मा डांसिंग मूव में नजर आ रही हैं।

साउथ अभिनेता नितिन की आगामी फिल्म 'रॉबिनहुड' की रिलीज डेट जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही फिल्म से जुड़ी कई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। आज निर्माताओं ने फिल्म में केतिका शर्मा के डांस होने की पुष्टि एक पोस्टर के जरिए की।

नितिन की नई फिल्म 'रॉबिनहुड' एक एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्म होगी, जिसे कई बार किन्हीं कारणों से टाला गया है। अब फाइनली निर्माताओं के अनुसार, यह फिल्म 28 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस फिल्म को वेंकी कुदमुला ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में साउथ अभिनेता नितिन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में नितिन के साथ पुष्पा फेस सॉनि किसिक अभिनेत्री श्रीलीला अहम भूमिका में नजर आएंगी।

मॉडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में फिल्म के निर्माता रविशंकर ने कहा कि यह नितिन की सबसे शानदार फिल्म होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नितिन और श्रीलीला की जोड़ी रंपोकिरी फिल्म के महेश बाबू और इलियाना की जोड़ी की याद दिलाएगी। फिल्म में खूबसूरत अभिनेत्री केतिका शर्मा एक खास डांस नंबर में नजर आएंगी। इस गाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन फिल्म के टलने की वजह से इसे रिलीज नहीं किया गया। अब यह खास गाना 10 मार्च को रिलीज होगा। फिल्म निर्माताओं ने आज केतिका का एक शानदार डांसिंग मूव पोस्टर जारी किया है।

भोजपुरी

बड़ी मुश्किल है उगर मायके की, रानी ने मजेदार अंदाज में बयां की सच्चाई

सभी महिलाओं के लिए मायके जाने का रास्ता आसान नहीं होता। कई पहाड़ रास्ता रोके रहते हैं। रानी चटर्जी की आ गा मी भोजपुरी फिल्म 'मायके के टिकट कटा दी पिया' में कुछ यही दिखाया गया है। इसका ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज हो गया है।

फिल्म के ट्रेलर में रानी चटर्जी ससुराल से मायके जाने की तैयारी करती हैं। मगर, मायके का रास्ता उनके लिए इतना कठिन हो जाता है कि सालभर यू ही गुजर जाता है। कभी सास की बीमारी। कभी ट्रेन का रद्द होना तो कभी अचानक ननद-ननदों और मेहमानों का आगमन...हर बार प्लान फेल हो जाता है। और जैसे-तैसे करके जाती भी हैं, तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि वहां रुकना मुश्किल हो जाता है। इस फिल्म का ट्रेलर आज शुक्रवार को बीफोर यू के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। फिल्म का निर्देशन इशितयाक शेख बंटी ने किया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि रानी चटर्जी अपने पति से नैहर जाने का टिकट कराने की कहती हैं। टिकट होती है तो ट्रेन रद्द हो जाती है। कभी सास बीमार हो जाती है। सड़क मार्ग से जाती हैं तो किश्तें पूरी न होने के कारण पुलिस कार रोह लेती है। इन परिस्थितियों को दूर करती हैं तो ननद अपने परिवार के साथ रहने आ जाती हैं। देखते-देखते पूरा साल बीत जाता है।

कनाडा की स्टाइल



लाइफ स्टाइल

कुछ पुराने जमाने की शान कभी भी आपके वॉर्डरोब में शामिल होने के लिए बुरी नहीं होती, चाहे वह ट्रेंडी हो या नहीं। गुच्ची और लुई वुइटन जैसे डिजाइनरों ने हाल ही में कनाडा के फैशन को लेकर कुछ ऐसा ही किया। जींस या स्नीकर्स और क्लॉग्स जैसे अप्रत्याशित फुटवियर के साथ कुछ हाई-लो फ्रिक्शन पेश करके डिजाइनरों ने खूब वाहवाही लूटी।

काले घेरे और थकी आंखों को मिलेगी ठंडक, आजमाकर देखें आई मास्क

काले घेरे और थकी-बुझी से आंखें क्या आपको भी बीमार-सा फील करवाती हैं? स्ट्रेस और नींद न पूरी होने के कारण आपकी आंखों के आसपास पफिनेस हो जाती है। आप घर पर ही नेचुरल नरिशिंग कूलिंग मास्क बना सकते हैं और इसे अपने आंखों पर लगाकर आंखों की थकान और काले घेरे से छुटकारा पा सकते हैं।

गुलकंद और ठंडे दूध का आई मास्क

गुलकंद सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा को ठंडक पहुंचाने के लिए भी बेहतरीन होता है। यह आंखों की थकान और थकान को दूर करने में मदद करता है। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को हल्का करता है और डार्क सर्कल्स कम करता है।

कैसे बनाएं: एक चम्मच गुलकंद को 2 चम्मच ठंडे दूध में मिलाएं। इसमें कॉटन पैड भिगोकर आंखों पर रखें। 15-20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।

गाजर और नारियल पानी का आई मास्क

गाजर में मौजूद विटामिन-ए और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषण देते हैं, जबकि नारियल पानी त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करता है।

कैसे बनाएं: गाजर को कटूकस करें और उसमें 2 चम्मच नारियल पानी मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके आंखों पर रखें। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।



तुलसी और शहद का आई मास्क

तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आंखों की जलन को कम करने में मदद करते हैं, जबकि शहद त्वचा को नरिश करता है।

कैसे बनाएं: कुछ तुलसी के पत्तों को पीसकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसे हल्का ठंडा करके आंखों के नीचे लगाएं। 10-15 मिनट बाद धो लें। केसर अपनी एंटीऑक्सीडेंट और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। जब इसे ठंडे दूध के साथ मिलाया जाता है, तो यह आंखों को गहराई से पोषण देता है और डार्क सर्कल्स को हल्का करने में मदद करता है।

रिंस पहनने का है आपको भी शौक तो पहनिए ये खूबसूरत डिजाइन

अगर आपको भी फिंगर रिंस का बेहद शौक है, तो अब आपको लेटेस्ट रिंस तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप इन खूबसूरत रिंस सेट को ट्राई कर सकती हैं। इसमें आप अपने हाथों की खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं।

गोल्ड प्लेटेड एडजस्टेबल फिंगर रिंग सेट

अगर आपको भी रिंस पहनने का शौक है, तो आप ये खूबसूरत 8 गोल्ड प्लेटेड एडजस्टेबल फिंगर रिंग सेट कैरी कर सकती हैं। इसमें आप बेहद खूबसूरत लगेगी। साथ ही अपने लुक को स्टाइलिश भी बना सकेंगी। आपकी इन अंगूठी सेट को देख कर हर कोई आपकी तारीफ करेगा। आप इस रिंग सेट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से खरीद सकती हैं। आपको ऑनलाइन ये रिंग सेट केवल 305 रुपये में मिल जाएगा।

सिल्वर प्लेटेड रिंग सेट

अगर आप भी अपने ऑफिस या कॉलेज में रिंग सेट पहनकर जाना चाहती हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप



इस स्टाइलिश सिल्वर प्लेटेड 15 बोहो विंटेज स्टाइल रिंग सेट को शामिल कर सकती हैं। ये सभी फिंगर रिंग आपकी उंगलियों को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाने में मदद करेंगी। आप इस रिंग सेट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खरीद सकती हैं। यह रिंग सेट आपको ऑनलाइन केवल 238 रुपये में मिल जाएगा।

कार्न न्यूज

अपने पहनावे को बदल कर छिपा सकते हैं पेट

फैशन के शौकीनों के लिए बाधा है बाहर निकला पेट, शर्मने के बजाए बदलें अंदाज



नो बॉडी शेमिंग जैन!

बॉडी के शेप और साइज को लेकर कई तरह के कॉमेंट सुनने को मिलते हैं। कई लोग तो पहले से ही अवधारणा बना लेते हैं कि मेरा पेट निकला है, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, लड़कियां मुझे पता नहीं क्या समझती

होंगी आदि इत्यादि।

अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो सबसे पहले लोगों की बातों का परवाह करना छोड़ दें। लोगों की बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए अगर आपको बिग बैली पसंद है तो खुद का मनोबल न गिराएं। क्योंकि अच्छे लुक के लिए अच्छी ड्रेसिंग सेंस के साथ-साथ आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है।

अपनी पसंद को दें प्राथमिकता

चाहे कोई रंग हो या बॉडी शेप, हर व्यक्ति हर तरह के कपड़े पहन सकता है। इसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपको जो पसंद हो उसे पहनें। लेकिन उसको पहनने का तरीका इंजुव करें। जहां पर मिस्टेक हो रही है वहां पर सुधार करें।

अगर आपको कोई कहता है कि शर्ट न पहनें, टी-शर्ट न पहनें, ये न पहनें वो न पहनें तो ऐसी बातों से दूर रहें। आपको जो पसंद है उसे पहनें। चलिए अब हम उनको सही तरीके से

कैरी करने की बात जान लेते हैं।

टाइट फिट इस पहनने से बचें

कई लोगों को बहुत अधिक टाइट ड्रेस पहनने की आदत होती है। खासकर वे लोग टॉप वियर्स जैसे- टी-शर्ट, शर्ट या कुर्ता टाइट फिट पहनते हैं। इस वजह से उनकी ड्रेस पेट के पास आकर खिंचती है।



ऑफिस में है होली का फंक्शन, तो ट्राई करें लाइट कलर के कुर्ता प्लाजो सेट



आपके ऑफिस में भी होली का इवेंट ऑर्गनाइज हो रहा है और ऐसे में आप आउटफिट को लेकर परेशान हैं, तो आप इन कुर्ता प्लाजो और दुपट्टे सेट को कैरी कर सकती हैं। इन्हें पहनकर आप भी अपनी खूबसूरती में रंग भर सकती हैं।

अगर आपके ऑफिस में भी हर साल की तरह इस साल भी होली का फंक्शन रखा गया है और आप आउटफिट को लेकर काफी परेशान हैं, तो अब आपको फिक्क करने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे लाइट कलर के कुर्ता प्लाजो सेट बताएंगे, जिसे पहनकर आप अपने ऑफिस में होने वाले होली इवेंट के दौरान अपना जलवा बिखेर सकती हैं। आइए जानते हैं उन आउटफिट्स के बारे में।

होली इवेंट में पहने ये आउटफिट

होली खेलना किस पसंद नहीं होता है, ऐसी कई लड़कियां हैं जो रंग-गुलाल के साथ खेलना बेहद पसंद करती हैं। यही नहीं होली के दिन में काफी मस्ती भी करती हैं। ऐसे में अगर आप भी ऑफिस में होने वाले इवेंट पर खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो आपके लिए ये लाइट कलर का मंदारिन कॉलर स्ट्रेट कुर्ता प्लाजो सेट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इसके साथ झुमके वियर कर सकती हैं और अपने बाल को स्ट्रेट रख सकती हैं।

ए-लाइन कुर्ता प्लाजो सेट

ऑफिस में होली का इवेंट है, तो आप ये लाइट कलर का गोल गले वाला सीक्विन्ड ए-लाइन कुर्ता प्लाजो और दुपट्टे के साथ तैयार सेट भी वेंचर कर सकती हैं। इसमें न केवल आप स्टाइलिश लगेगी बल्कि आप इस ड्रेस को पहनकर कंफर्टबल महसूस करेंगी। आपको यह ड्रेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगी। इस ड्रेस के साथ आप गोल्डन कलर के एक्सेसरीज कैरी कर सकती हैं। यही नहीं इस कुर्ता प्लाजो सेट के साथ आप हील्स भी शामिल कर सकती हैं।

थीड से हटकर दिखने के लिए और ऑफिस में हो रहे होली फंक्शन में अपना जलवा बिखरने के लिए आप ये लाइट कलर का फ्लोरल योक डिजाइन थ्रेड वर्क अनारकली कुर्ता प्लाजो और दुपट्टा सेट भी ट्राई कर सकती हैं। इसे पहनकर आप किसी हसीना से कम नहीं लगेगी। यह आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

आलू और टमाटर के जूस से पाएं बेदाग और ग्लोइंग स्किन

बेदाग और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए महिलाएं कई सारे स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं। साथ ही, कई सारे प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन, अगर आप इस खर्च को बचाना चाहती हैं और सस्ते में बेदाग और ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं तो आलू और टमाटर के जूस की मदद से आप बेदाग और ग्लोइंग स्किन पा सकती हैं।

त्वचा के लिए फायदेमंद है आलू का जूस

आलू में कई सारे गुण होते हैं साथ ही, इसमें विटामिन सी, पोर्टेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होता है। ये सभी गुण त्वचा की चमक बढ़ाने, काले दाग-धब्बों को दूर करने साथ ही, सनबर्न और पिगमेंटेशन को हल्का करने में मददगार हैं।

काले धब्बों और पिगमेंटेशन के लिए करें आलू के रस का इस्तेमाल

आलू को कटूकस करें और इसका रस निकाल लें। इसे काले धब्बों वाली जगहों पर अप्लाई करें। 15-20 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें। इस उपाय को



हफ्ते में 3-4 बार करें।

त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए आलू और शहद का फेस पैक: 2 बड़े चम्मच आलू के रस में 1 छोटा चम्मच शहद मिलाएं। इसे चेहरे अप्लाई करें और 20 मिनट के लिए ठंडे पानी से धो लें। सप्ताह में 2-3 बार उपयोग करें। त्वचा को चमकदार बनाने के लिए आलू और नींबू का रस: 1 बड़ा चम्मच आलू के रस में 1 छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाएं। कॉटन पैड की मदद से त्वचा पर लगाएं और 10-15 मिनट के बाद पानी से धो लें। इसे सप्ताह में 2 बार उपयोग करें।